



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 49] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 3—दिसम्बर 9, 2011 (अग्रहायण 12, 1933)
No. 49] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 3—DECEMBER 9, 2011 (AGRAHAYANA 12, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the
Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

दिनांक 8 नवम्बर 2011

नई दिल्ली, दिनांक 21 अक्टूबर 2011

सं. ए-60011/27/2011-आरटीआई सेल(प्रशा.)--सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) की शर्तों के अनुसार श्री एन.सी. गौड़, संयुक्त सचिव (नियुक्ति) को उनके नाम के सामने दर्शाई गई विशिष्ट विषय वस्तु के संबंध में तत्काल प्रभाव से अपीलीय प्राधिकारी के रूप में पदनामित किया जाता है:--

अपीलीय प्राधिकारी का नाम	विषय वस्तु	के.लो.सू. अधि. का नाम
श्री एन.सी. गौड़, संयुक्त सचिव (नियुक्ति)	ग्रुप 'क' एवं 'ख' पदों के भर्ती नियमों के बनाने तथा संशोधन से संबंधित सभी मामले।	श्री ओम प्रकाश, अवर सचिव (भर्ती नियम)

के.एम. शशिधरन
अवर सचिव (प्रशा.)

सं. ए-60011/27/2011-आरटीआई सेल(प्रशा.)--सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5(1) की शर्तों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के श्री नीरज सचदेव, अवर सचिव (प्रशा.) को श्री के.एम. शशिधरन, अवर सचिव (प्रशा.-IV एवं सं.प. एवं का.अ.) के स्थान पर उनके नाम के सामने दर्शाई गई विशिष्ट विषय वस्तु के संबंध में आगामी आदेशों तक एतद्वारा केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के रूप में पदनामित किया जाता है:--

के.लो.सू. अधिकारी का नाम	विषय वस्तु	अपीलीय प्राधिकारी
श्री नीरज सचदेव, अवर सचिव (प्रशा.)	सं.लो.से.आ. के राजपत्रित एवं अराजपत्रित स्टाफ के सभी कार्मिक एवं स्थापना संबंधी आर.टी.आई. मामले सहित प्रशासन, लेखा एवं सतर्कता से संबंधित आर.टी.आई. के सभी मामले।	श्री एस.बी. सरोहा, संयुक्त सचिव (प्रशा. सा. दूरभाष सं. 23386793 फैक्स सं. 23098552)

के.एम. शशिधरन
अवर सचिव

नई दिल्ली-110069, दिनांक 14 नवम्बर 2011

सं. ए-60011/27/2011-आर.टी.आई. सेल(प्रशा.)--सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) की शर्तों के अनुसार श्री शैलेन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव (अ.भा.से. शाखा), सं.लो.से.आ. को उनके नाम के सामने दर्शाई गई विशिष्ट विषय वस्तु के संबंध में एतद्वारा अपीलीय प्राधिकारी के रूप में पदनामित किया जाता है:--

के.लो.सू. अधिकारी का नाम	विषय वस्तु	अपीलीय प्राधिकारी
श्री शैलेन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव (अ.भा.से.)	संवर्ग आबंटन के संबंध में राज्य सेवा के अधिकारियों को अखिल भारतीय सेवाओं में शामिल किए जाने के लिए आर.टी.आई. के सभी मामले तथा नोडल विधायी अनुभाग से संबंधित आर.टी.आई. से संबंधित मामले।	श्री दिनेश कुमार, उप सचिव (अ.भा.से.)
श्री शैलेन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव (अ.भा.से.)	संवर्ग आबंटन के संबंध में राज्य सेवा के अधिकारियों को अखिल भारतीय सेवाओं में शामिल किए जाने के लिए आर.टी.आई. के सभी मामले।	सुश्री रश्मि सिन्हा, उप सचिव (अ.भा.से.)

निरज सचदेव
अवर सचिव (प्रशा.)

गृह मंत्रालय

सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी

हैदराबाद-500052, दिनांक 17 नवम्बर 2011

सं. 15011/20/2011-स्था.--गृह मंत्रालय के पत्र सं. 1-21016/35/2010-भा.पु.से.-III दिनांक 23 मई, 2011 के अनुसार श्रीमती मालिनी अग्रवाल, भा.पु.से. (राजस्थान-94) को स.व.प. राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में उप-निदेशक के पद पर पे-बैंड-4, रु. 37,400--67,000/- + ग्रेड पे रु. 8,900/- के साथ प्रतिनियुक्ति की सामान्य शर्तों पर वे इस पद का कार्यभार संभालने की तिथि से लेकर पांच वर्ष के लिए या अगला आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले लागू हो, नियुक्त किया जाता है।

गृह मंत्रालय के आदेश के अनुपालन में श्रीमती मालिनी अग्रवाल, भा.पु.से. (राजस्थान-94) ने दिनांक 04 नवम्बर, 2011 पूर्वाह्न से अकादमी में उप-निदेशक के पद पर कार्यभार ग्रहण किया।

वी.एन. राय
निदेशक

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 15 नवम्बर 2011

सं. ओ.दो. 3897/11-कार्मिक(एम.ओ.ज.)--राष्ट्रपति जी, डॉ. हेमेट कुमार को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में चिकित्साधिकारी (सहायक कमाण्डेन्ट) के पद पर वेतन बैंड रु. 15,600--39,100/- साथ में

रु. 5,400/- ग्रेड वेतन में अस्थायी रूप से दिनांक 08.11.2011 (पूर्वाह्न) से अग्रिम आदेश तक सहर्ष नियुक्त करते हैं। उपरोक्त अधिकारी सीएच, के.रि.पु. बल, मुजफ्फरपुर में रिपोर्ट किया है।

आर.एन. मिश्रा
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग

महालेखाकार (सिविल लेखापरीक्षा) का कार्यालय, ओडिशा

भुवनेश्वर, दिनांक 8 नवम्बर 2011

सं. प्रशा (सि.ले.)-3-1(लेपअ)भाग-X/1709--ज्ञापन सं. प्रशा. (लेप)/3-1/भाग-X/1635, दिनांक 28.10.2011 द्वारा सूचित का.आ.ग. 752, दिनांक 28.10.2011 के अनुपालन में निम्नलिखित कर्मचारियों ने पदोन्नति होने पर उनके नाम के आगे दर्शाए गए तिथि से वेतन बैंड-2, (रु. 9,300--34,800/-) एवं सादृश्य वेतन ग्रेड रु. 4,800/- पर सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किए:--

क्र. सं.	नाम	सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में कार्यभार लेने की तिथि
	सर्वश्री/श्रीमती/कुमारी	
1.	सरस्वती सोरेन	28.10.2011 (अपराह्न)
2.	पवित्र मोहन नायक	28.10.2011 (अपराह्न)
3.	दिलीप कुमार हजारी	31.10.2011 (पूर्वाह्न)
4.	मनोरंजन त्रीपाठी	28.10.2011 (अपराह्न)
5.	सूर्य कुमार गरूड़	28.10.2011 (अपराह्न)
6.	शाश्वत सत्यजित हरिचन्दन	31.10.2011 (पूर्वाह्न)

ह./- अपठनीय
लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशा.)

भुवनेश्वर, दिनांक 14 नवम्बर 2011

सं. प्रशा (सि.ले.)-17-2(लेपअ)भाग-VII/1749--ज्ञापन सं. प्रशा. (सि.ले.)/17-2/(लेपअ)/भाग-VII/1637, दिनांक 28.10.2011 द्वारा सूचित का.आ.ग. 753, दिनांक 28.10.2011 के अनुपालन में निम्नलिखित सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों ने पदोन्नति होने पर उनके नाम के आगे दर्शाए गए तिथि से वेतन बैंड-2 (रु. 9,300--34,800/-) एवं सादृश्य

वेतन ग्रेड रु. 5,400/- पर लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है :--

क्र. सं.	नाम	लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में कार्यभार लेने की तिथि
1.	श्री/श्रीमती/कुमारी अशोक कुमार नन्द	01.11.2011 (पूर्वाह्न)
2.	अंगद नाग	01.11.2011 (पूर्वाह्न)
3.	अरुण कुमार सेठी	01.11.2011 (पूर्वाह्न)
4.	उपेन्द्र नाथ दास	01.11.2011 (पूर्वाह्न)
5.	उदय नाथ पात्र	01.11.2011 (पूर्वाह्न)

र. कु. दास

व. लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशा.)

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), पश्चिम बंगाल

कोलकाता-700001, दिनांक 8 नवम्बर 2011

सं. प्रशा. I/1038-XXVII/2011-12/1400--महालेखाकार (लेखा एवं हक), पश्चिम बंगाल ने श्रीमती नंदिता मुंशी तथा श्री नन्दलाल रक्षित दोनों सहायक लेखा अधिकारियों को दिनांक 08.11.2011 (पूर्वाह्न) के प्रभाव से लागू या उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, जो बाद में हो, वेतन बैंड रु. 9,300--34,800/- जमा ग्रेड वेतन रु. 5,400/- प्रतिमाह पर लेखा अधिकारी के पद पर प्रोन्नति प्रदान किए हैं।

नए प्रोन्नत लेखा अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से लेखा वर्ग में पदस्थापित किया जाता है।

[प्राधिकार: म.ले. का आदेश दिनांक 08.11.2011]

ए.एन. दास

उप महालेखाकार (प्रशा.)

कार्यालय महालेखाकार (सिविल लेखापरीक्षा), आंध्रप्रदेश

हैदराबाद-500004, दिनांक 15 नवम्बर 2011

सं. प्रशा. I/प्रोन्नति/5-4/2011-20/53--प्रतिनियुक्ति पर लिए गए निम्नलिखित पदधारियों को उनके सामने दी गई प्रभावी तिथि से इस कार्यालय में समूह-"बी" के सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी के राजपत्रित पदों हेतु आमेलित किया जाता है:--

क्र. सं.	नाम	आमेलन की तिथि
1	2	3
	सर्वश्री/श्रीमती/कुमारी	
1.	आर.एस.एस. रघु प्रसाद	06.03.2009
2.	वी. आदिशेषाह	--

1	2	3
3.	वेदयानंदम	06.03.2009
4.	वी. श्री निवास राव-I	--
5.	एस. प्रमीला देवी	--
6.	वी. नागा राज	--
7.	जी. शेषा सायिनी	--
8.	सी. कमलेश्वरी	--
9.	टी.वी. चंद्रमोहन राव	--
10.	एस. केशव रेड्डी	--
11.	एम. श्रीनिवास कुमार	--
12.	सी. सुमन	17.03.2009
13.	बी.वी.वी.वी.एस.ए.एम.जी. कुमार	--
14.	पी. रामा किरण	06.03.2009

आर. राधाकृष्णन

उप महालेखाकार (प्रशा.)

सं. प्रशा. I/पदो./5-4/एफ.60/2011-2012/53--महालेखाकार ने निम्नलिखित पदधारियों को ग्रेड वेतन 4,800/- सहित वेतन बैंड-2 के रु. 9,300-34,800/- में स्थानापन्न कर उनके नाम के सामने उल्लिखित प्रभावी तिथि से सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (सिविल) (समूह-"ख" राजपत्रित) के रूप में पदोन्नत किया है:--

क्र. सं.	नाम	पदोन्नति की तिथि
1	2	3
	सर्वश्री/श्रीमती/कुमारी	
1.	ए. राजा राव	04.06.2009
2.	आशीष कुमार द्विवेदी	वही
3.	विजय गौतम	वही
4.	मुकेश कुमार	वही
5.	बिनित कुमार	वही
6.	राकेश कुमार मीना	वही
7.	एस. लेतुकुलन वाईपाई	वही
8.	अविनाश चंद्र बी. सागर	वही
9.	विजयी कुमार	वही
10.	ए. तिरूमलेश	वही
11.	शेष कुमार	वही
12.	आशीष कुमार श्रीवास्तव	वही
13.	सुधाकर कुमार	वही

1	2	3
14.	पंकज कुमार श्रीवास्तव	04.06.2009
15.	एन. वी. नागेश	01.01.2010
16.	सीएच वी.एस.एस. प्रसाद	वही
17.	आर. सत्या नारायण मूर्ति	वही
18.	ए. हेमंत कुमार	वही
19.	डी. अप्पा राव	वही
20.	वी. कृष्णामूर्ति	वही
21.	आर. श्रीनिवास राव	वही
22.	पी. भुजंग राव	वही
23.	आर. एस. श्रीनिवास	वही
24.	मो. फकरुद्दीन	01.12.2010
25.	विजय बहादुर वर्मा	वही
26.	विजय येल्लामल्ली	वही
27.	अनिल कुमार	वही
28.	के. रघु राम	30.12.2010
29.	जी. श्रीनिवास राव	वही
30.	बी. सतीश कुमार	वही
31.	आर. अमरनाथ	वही
32.	एन. श्रीनिवास राव	वही
33.	जी. मनीष कुमार	वही
34.	पी. अच्युता राजेश	वही
35.	पी. मालाकौंडिया	31.10.2011
36.	के. गौतम कुमार	02.11.2011
37.	शेख हुसैन अहमद	31.10.2011
38.	लक्ष्मी वी. रतन बाबू	वही
39.	डी. हेमा चेतन्या	वही
40.	पी. वेंकटेश्वरालू	वही
41.	वी. नागाराजू	वही
42.	वी श्रीनिवास बाबू	वही

उपरोक्त प्रोन्नति आदेश उनके वरिष्ठों के दावों, यदि कोई हो, के प्रति पक्षपात से रहित है तथा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय/भारत के सर्वोच्च न्यायालय/केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण इत्यादि में लंबित रिट याचिकाओं, यदि कोई हो, के परिणाम के अधीन है।

आर. राधाकृष्णन
उप महालेखाकार (प्रशा.)

भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र

मुंबई-400085, दिनांक 11 नवम्बर 2011

सं. पीडी/2(5)/2011-भर्ती-IV/7696--राष्ट्रपति, निम्नलिखित व्यक्तियों को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में उनके नाम के आगे उल्लिखित कॉलम 3 से 5 में दर्शाए गए पद, वेतनमान तथा नियुक्ति तिथि में, आगामी आदेशों तक अस्थाई रूप में नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	नाम	नियुक्ति पद	वेतनमान	नियुक्ति तिथि
1.	डॉ. पदमाकर देवराव उषडे	वैज्ञानिक अधिकारी-सी	15,600--39,100 +5,400/- (ग्रेड पे) एनपीए	07.07.2011 (पूर्वाह)
2.	डॉ. अशोक य. कट्टीमनी	वैज्ञानिक अधिकारी-सी	15,600--39,100 +5,400/- (ग्रेड पे) एनपीए	08.07.2011 (पूर्वाह)
3.	डॉ. समेन्द्र यादव	वैज्ञानिक अधिकारी-सी	15,600--39,100 +5,400/- (ग्रेड पे) एनपीए	14.07.2011 (पूर्वाह)

शैलजा प्रकासम
उप स्थापना अधिकारी

दिनांक 15 नवम्बर 2011

सं. पीडी/7(29)/2011-भर्ती-IV/(एसओ/जी)/99527--राष्ट्रपति, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों/इंजीनियरों ग्रेड एफ, पे बैंड रु. 37,400--67,000/- + ग्रेड पे रु. 8,700/- को वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड जी के पद पर पे बैंड रु. 37,400--67,000/- + ग्रेड पे रु. 8,900/- के वेतनमान में इसी अनुसंधान केंद्र में 1 जुलाई, 2011 के पूर्वाह से, डॉ. पयस इल्लीपरम्पील चाको, क्रम संख्या 26 एवं श्री विवेक मारुती चव्हाण, क्रम संख्या 81 जिनकी नियुक्ति तिथियां क्रमशः 11 जुलाई, 2011 एवं 04 जुलाई, 2011 के पूर्वाह से है को छोड़कर, आगामी आदेशों तक, स्थानापन्न रूप से कार्य करने हेतु नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम
1	2
1.	श्रीमती लेनि रन्जित
2.	श्री पटेल कैलाश बी.
3.	श्री सुरेन्द्र सिंह शिवहरे
4.	श्री रत्नसिंह इस्राएल बक्त सिंह
5.	डॉ. दिबेन्दु भट्टाचार्य
6.	श्री मंजिनी चंद्रा
7.	श्री फूल चंद

1	2	1	2
8.	श्री दिनेश मधुकर सरोदे	40.	श्री मनीष कुमार
9.	डॉ. (श्रीमती) सुलेखा मुखोपाध्याय	41.	डॉ. (श्रीमती) अश्विनी जयंत रिसबूड-खांडेकर
10.	श्री लद्धा आनंद प्रभुदयाल	42.	डॉ. नोभोजित रॉय
11.	श्रीमती रंजना कुलगोड	43.	डॉ. (श्रीमती) पल्लवी दीपराज भंडारकर
12.	श्री टि. एल. प्रसाद	44.	डॉ. राजीव कपूर
13.	श्री असीम कर	45.	श्री अंजन चटर्जी
14.	श्री रमाकान्त साहु	46.	डॉ. (श्रीमती) रोजा गोपालकृष्णन
15.	श्री विनय कुमार श्रीवास्तव	47.	डॉ. संजय जगन्नाथजी जांभुलकर
16.	डॉ. राजेन्द्रकुमार बालक्रिष्णा ओझा	48.	डॉ. (श्रीमती) मंडा संकरी
17.	श्री आलोक अशोक आगाशे	49.	श्री पेम्मराजु साई कुमार
18.	श्रीमती प्रफुल्ला सतीष	50.	डॉ. सत्यरंजन साँतरा
19.	श्री साजु जॉय	51.	श्री जयंत कुमार जैन
20.	डॉ. वेन्कटेश्वरन बालाजी	52.	श्री पुत्तनपरंपिल मथाई औसेफ
21.	श्री ललित कुमार रथ	53.	श्री विजय धुवराव आलूर
22.	श्री उज्जल कुमार मुखर्जी	54.	श्री नरसिमंहन एस.
23.	श्री जयंति राधाकृष्ण	55.	श्री के. प्रेम सायी
24.	डॉ. कुमार नारायणस्वामि	56.	डॉ. (श्रीमती) माधुरी जयंत कुलकर्णी
25.	डॉ. नन्द लाल मिश्र	57.	श्री दिनेश कुमार चन्द्राकर
26.	डॉ. पयस ईल्लीपरम्पील चाको	58.	श्री लिमये संजय प्रभाकर
27.	डॉ. सत्यजीत चौधुरी	59.	श्री संजय पंवार
28.	श्री योगेन्द्र दत्त शुक्ल	60.	श्री सुधीर कुमार भाटिया
29.	डॉ. (श्रीमती) लेखा मन्डल चौधरी	61.	श्री नवाब सिंह बघेल
30.	श्री गोगटे दिलीप नारायण	62.	डॉ. रमेश वी. असोपा
31.	डॉ. (श्रीमती) सुषमा मिश्र	63.	श्री जी. रविशंकर
32.	डॉ. यू. सरवना कुमार	64.	श्री पी. षण्मुगवेल
33.	श्री डानियल बाबू पी.	65.	श्री जैनेन्द्र तिवारी
34.	श्री जयन्त कुमार गायेन	66.	श्री सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल
35.	श्री पुरुषोत्तम कोठीरामजी निंबुलकर	67.	श्री सुशांत कुमार दे
36.	श्री त्रिलोक सिंह वर्मा	68.	डॉ. जी. भास्कर दत्त
37.	श्री पामीडीमुक्कला वेणूमाधव	69.	डॉ. घासिराम दे
38.	डॉ. ए. वि. एस. एस. एन. राव	70.	श्री पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा
39.	डॉ. (श्रीमती) रिता मुखोपाध्याय	71.	डॉ. संजय विश्वनाथ ठाकरे

1	2	1	2
72.	डॉ. अनिल कुमार सक्सेना	85.	डॉ. रंजन मित्तल
73.	श्री बृन्दाबन घोष	86.	डॉ. राकेश कुमार बाजपेयी
74.	डॉ. (श्रीमती) गोपिका विनोद	87.	डॉ. के. गोपीनाथ भूषण
75.	श्री पवन कुमार सिंह	88.	कुमारी नारायणन पद्मा
76.	श्री रोहित रस्तोगी	89.	श्री प्रकाश गिदोमल अबिचंदानी
77.	श्री इसरार अहमद अन्सारी	90.	श्री रविसंकर इडाक्कुणी
78.	श्री नटराजन कल्याणसुन्दरम	91.	श्री ज्ञानप्रकाश गुप्ता
79.	श्री सतीश धोंडोपंत भारंबे	92.	श्री पी. एच. त्यागराजु
80.	श्री निर्मल कुमार मंडल	93.	श्री सन्तोष कुमार सतपती
81.	श्री विवेक मारुती चव्हाण	94.	श्री बीरेन्द्र नारायण सिंह
82.	श्री देवाशीष मित्रा	95.	डॉ. टी. सुब्बा राव
83.	श्री बंगलौर वेंकतारामु दिनेश		
84.	श्री राजेश कुमार सिंह		

शैलजा प्रकासम
उप स्थापना अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग

(क्रय और भंडार निदेशालय)

मुंबई-400094, दिनांक 15 नवम्बर 2011

सं. क्रभनि/11006/भर्ती/5366--राष्ट्रपति, इस विभाग के श्री एन. सुब्रमणी, लेखा अधिकारी (पीबी-2 रु. 9,300--34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 5,400/-), क्रभनि, मुंबई, को दिनांक 01 जुलाई, 2010 (पूर्वाह्न) से अगला आदेश होने तक इसी निदेशालय में वरिष्ठ लेखा अधिकारी वेतन बैंड पीबी-3 रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन + 5,400/- के पद पर नियुक्त करते हैं।

कैथरीन राज
प्रशासनिक अधिकारी-III

इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र

कल्पाक्कम-603102, दिनांक 24 अक्टूबर 2011

सं. इंगांपअकें/ए-11013/ओसीईएस-2010/2011-भर्ती--राष्ट्रपति महोदय, निम्नलिखित अधिकारियों को परमाणु ऊर्जा विभाग के इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र, कल्पाक्कम में अस्थायी क्षमता पर अगले आदेश तक वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड 'सी' के पद पर रु. 15,600--39,100/- के वेतन बैंड तथा रु. 5,400/- के ग्रेड वेतन पर उनके नाम के सामने दर्शाए गए प्रारंभिक वेतन पर दिनांक 1 सितम्बर, 2011 के पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	प.प.सं./अनुभाग	नाम	जन्म दिनांक	वेतन वृद्धि + ग्रेड वेतन के साथ मूल वेतन
1	2	3	4	5
1.	10317/सीडी/ईआईजी	श्री टी. एस. श्री कृष्णन	12.11.1988	रु. 22,890/-
2.	10318/एमपीडी/एमएसजी	श्री रंजीत रामचंद्रन	25.05.1986	रु. 22,890/-
3.	10319/एसएनडी/एमएसजी	श्री किशोर कुमार मदपु	05.04.1983	रु. 22,890/-
4.	10320/एफसीएचडी/सीजी	श्री चिनारगा पिच्चैया के.	22.09.1987	रु. 22,890/-
5.	10321/पीएमजी/एमएमजी	श्री राज नारायण हजरा	17.05.1986	रु. 22,890/-
6.	10322/एफआरएफसीएफ	श्री अमित कुमार दास	17.01.1989	रु. 22,890/-

1	2	3	4	5
7.	10323/एलएमएससीडी/सीजी	श्री श्याम कुमार एस.	15.02.1985	रु. 22,890/-
8.	10324/आरआईआरडी/एमएमजी	श्री जॉनी सी. जॉनसन	18.11.1987	रु. 22,890/-
9.	10325/एमएमडी/एमएमजी	श्री साईनाथ जी.	14.01.1988	रु. 22,890/-
10.	10326/एसटीजी/एफआरटीजी	श्री नागराजु बेकेंटी	07.05.1988	रु. 22,890/-
11.	1327/ईआईजी	श्री एस. लक्ष्मी प्रसाद	21.09.1984	रु. 22,260/-
12.	10328/आरआरडीडी/आरपीजी	श्री चिरंतन प्रमाणिक	02.03.1988	रु. 22,260/-
13.	10329/आरटीएसडी/ईआईजी	श्री सुजीत के. आर.	15.10.1986	रु. 22,890/-
14.	10330/आईडी एंड एसडी/एफआरटीजी	श्री सुब्रमन्या दीपक एम. वी.	19.09.1989	रु. 22,890/-
15.	10331/एफआरएफसीएफ	श्री अनुराज सिंह भदोरिया	05.07.1988	रु. 22,260/-
16.	10332/एनडीईडी/एमएमजी	श्री गोपीनाथ शिट	12.05.1988	रु. 22,260/-
17.	10333/आरआरडीडी/आरपीजी	श्री रामकृष्ण रेड्डी सरेड्डी	10.07.1985	रु. 22,890/-
18.	10334/आरपीएचजी/आरईजी	श्री कपु यरनम्मा	15.06.1986	रु. 22,890/-
19.	10335/सीडीजी/एफआरटीजी	कु. जीनोमोल जॉय	22.04.1985	रु. 22,890/-
20.	10336/एमसीडी/सीजी	कु. सहनाज बानो	02.01.1987	रु. 22,890/-
21.	10337/एनएसईजी	श्री आशीष कुमार शुक्ला	01.10.1986	रु. 22,890/-
22.	10338/एमएमजी	श्री वेंकट कृष्ण किशोर जी.	16.05.1986	रु. 22,260/-
23.	10339/ईआईजी	श्री डी.एन. वी. आर. सुब्रमणियम	30.09.1984	रु. 22,890/-
24.	10340/एमएसजी	श्री राधाकृष्ण वी.	27.09.1987	रु. 22,260/-
25.	10341/एनएसईजी	कु. स्नेहलता वी.	13.02.1986	रु. 22,890/-
26.	10342/आरएसईजी/आरईजी	कु. श्रीजा राज मेनन	23.04.1987	रु. 22,890/-
27.	10343/ईआईजी	श्री नकुल राज सेठी	07.01.1986	रु. 22,890/-

ओ. के. सत्यन
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

अंतरिक्ष विभाग

विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र

तिरुवनंतपुरम-695022, दिनांक 13 अक्टूबर 2011

सं. वीएसएससी/स्था/एफ/1(17)--मुख्य नियंत्रक, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (वीएसएससी) एतद्वारा निम्नलिखित वैयक्तिक सहायकों को पदोन्नति पर रु. 9,300--34,800/- के वेतन बैंड में रु. 4,800/- के ग्रेड वेतन के साथ वैयक्तिक सचिव के पद पर, उनके नाम के आगे दिखाई गई तिथियों से, अगले आदेशों तक, वीएसएससी में नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	नाम	प्रभाग	प्रभावी तिथि
1.	श्रीमती चंद्रिका देवी आर.	क्यूएमपीजी	01.07.2010
2.	श्रीमती पार्वती जे.	बीएमपीडी	03.01.2011
3.	श्री राजगोपालन टी.	एसएमजी	01.03.2011
4.	श्रीमती आनंदवल्ली एस.	एसईआईजी	02.05.2011

आर. रविंद्रन
प्रशासन अधिकारी

दिनांक 21 अक्टूबर 2011

सं. वीएसएससी/स्था/एफ/1(17)--मुख्य नियंत्रक, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (वीएसएससी) एतद्वारा निम्नलिखित वैयक्तिक सहायकों को पदोन्नति पर रु. 9,300-34,800/- के वेतन बैंड में रु. 4,800/- के ग्रेड वेतन के साथ परियोजना वैयक्तिक सचिव के पद पर, उनके नाम के आगे दिखाई गई तिथियों से, अगले आदेशों तक, वीएसएससी में नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	नाम	प्रभाग	प्रभावी तिथि
1.	श्री विश्वनाथन एस.	एमवीआईटी	01.07.2010
2.	श्रीमती सरोजिनी के. पी.	आईएसडीटीएफ	02.08.2010
3.	श्रीमती अंबिका बी. के.	सीएसटीजी	01.10.2010
4.	श्री गोविंदन के. के.	लेखा	03.01.2011
5.	श्री सुधाकरन नायर ए.	सीओएन	03.01.2011

आर. रविंद्रन
प्रशासन अधिकारी

कम्पनी मामले मंत्रालय

कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स ईजी बिल्ड टेक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 15 नवम्बर 2011

सं. 560 (5)/149290--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ईजी बिल्ड टेक प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

अनीता क्लेर
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

कोलकाता-700020, दिनांक 21 नवम्बर 2011

सं. कं.रं./प.बं./एमएम-560(5)/2011--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना

दी जाती है कि निम्नलिखित कंपनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्र.सं.	नम्बर	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	071749	मैसर्स गारनेक्स एक्विजम प्राईवेट लिमिटेड
2.	072148	मैसर्स फ्राजिर इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
3.	072673	मैसर्स राजाधिराज कॉमर्शियल प्राईवेट लिमिटेड
4.	072750	मैसर्स लेक लैन्ड मरचेंट प्राईवेट लिमिटेड
5.	073987	मैसर्स स्टार पाईट कॉमर्शियल प्राईवेट लिमिटेड
6.	077619	मैसर्स विजयपथ कमोडिटिस प्राईवेट लिमिटेड
7.	077742	मैसर्स औपटिमा एक्विजम प्राईवेट लिमिटेड
8.	078077	मैसर्स महालक्ष्मी स्पलायर प्राईवेट लिमिटेड
9.	092380	मैसर्स दर्पण इन्टरप्राइज लिमिटेड
10.	092546	मैसर्स पोम मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
11.	090472	मैसर्स प्राचि निर्माण प्राईवेट लिमिटेड
12.	076039	मैसर्स मेहा कोनट्रेड प्राईवेट लिमिटेड
13.	091285	मैसर्स जूविटा ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
14.	093508	मैसर्स अभि विकचुवल्स एंड बिबरेज एजेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
15.	093876	मैसर्स सोना मुखी डीलर्स प्राईवेट लिमिटेड
16.	093878	मैसर्स सोनामोनी डीलर्स प्राईवेट लिमिटेड
17.	094890	मैसर्स ईको-ग्रोथ मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
18.	094432	मैसर्स जयजित लोजिस्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
19.	094053	मैसर्स सूरज एक्सप्रेस लिजर एण्ड होलीडेस प्राईवेट लिमिटेड
20.	091831	मैसर्स इन्टेरा टेलि-मिडीया प्राईवेट लिमिटेड
21.	079568	मैसर्स एलेक्सन फाईनेन्स कम्पनी लिमिटेड
22.	071626	मैसर्स दीपलोक सिक्कूरिटीज़ लिमिटेड
23.	091895	मैसर्स लाइनेक्स इन्फोरमेशन टेक्नोलोजी प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
24.	092907	मैसर्स ताग डाटाप्रेशन प्राईवेट लिमिटेड
25.	076015	मैसर्स गल्लाघेर कंसल्टेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
26.	088943	मैसर्स रेडेक्ट सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
27.	078197	मैसर्स चेरिस प्रोजेक्ट्स एण्ड रिसोर्सिस प्राईवेट लिमिटेड
28.	091927	मैसर्स सिंडीकेट इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
29.	092502	मैसर्स ईस्ट इन्डरस् हॉस्पिटल-कम रिसर्च एण्ड एजुकेशन लिमिटेड

हरिहर साहू
सहायक कंपनी रजिस्ट्रार
पश्चिम बंगाल

लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स जय खाण्डसारी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560/(5)/611/2-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स जय खाण्डसारी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

शिलांग-793001, दिनांक 17 नवम्बर 2011

सं. कं.रं./एसएसच/560(5)/2011/27--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कंपनियों के नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :-

क्र.सं.	कम्पनी नं.	कम्पनी का नाम
1.	009014	मैसर्स पीएचडब्ल्यू मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
2.	003153	मैसर्स एसीसीएस कलर फिल्म प्राईवेट लिमिटेड
3.	005106	मैसर्स इसकोम फार्म प्राईवेट लिमिटेड

जी. सी. यादव
कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. पू. क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स ओके कंसल्टेन्सी सर्विस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/612/3-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ओके कंसल्टेन्सी सर्विस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स मैग्नाकेम फार्मास्यूटीकल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/613/4-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मैग्नाकेम फार्मास्यूटीकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स प्रभात सेंट्रल एक्सचेंज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)610/1-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स प्रभात सेंट्रल एक्सचेंज प्राईवेट

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/617/8-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/620/11-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स फिलट्रेड प्राईवेट लिमिटेड का

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स इंडियन पी वी सी पाईप्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स नाकोडा सेल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/628/19-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स नाकोडा सेल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स अजवानी-शाहनी प्रमोटर्स एण्ड बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/629/20-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अजवानी-शाहनी प्रमोटर्स एण्ड बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स मेहेंदले इरीगेशन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/630/21-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मेहेंदले इरीगेशन प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स त्रयंबकेश्वर इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/631/22-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स त्रयंबकेश्वर इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स माया इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/632/23-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स माया इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स अँनाप्ट कम्प्यूटर सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/633/24-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अँनाप्ट कम्प्यूटर सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स चिनार मोल्डप्लास्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/634/25-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स चिनार मोल्डप्लास्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स श्री मेटल इंजीनियरिंग लिमिटेड के विषय में
पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/635/26-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स श्री मेटल इंजीनियरिंग लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स रत्नागिरी डेरी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/636/27-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स रत्नागिरी डेरी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स कुलकर्णी बोरवणकर कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/637/28-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स कुलकर्णी बोरवणकर कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स लेजेंड केम इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/638/29-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स लेजेंड केम इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स पसंद फूड एण्ड फिड्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/639/30-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स पसंद फूड एण्ड फिड्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स फ्ल्यूड टेक्नोलॉजिस एण्ड सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/640/31-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स फ्ल्यूड टेक्नोलॉजिस एण्ड सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स सेट्टा टाईम्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/641/32-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सेट्टा टाईम्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स उत्पल लिजिंग एण्ड फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/642/33-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के मैसर्स उत्पल लिजिंग एण्ड फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स असाकु पंप्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/643/34-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स असाकु पंप्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स शुक्रतारी इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/644/35-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स शुक्रतारी इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स पिटकर सर्जिकल्स एण्ड मार्केटींग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/645/36-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स पिटकर सर्जिकल्स एण्ड मार्केटींग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स परफेक्ट इन्फोकॉम्प प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/646/37-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स परफेक्ट इन्फोकॉम्प प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स श्री शारदा सुपरकॉन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/647/38-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स श्री शारदा सुपरकॉन प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स श्री शिवराया क्लॉथ एण्ड स्टील ट्रेडर्स लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/648/39-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स श्री शिवराया क्लॉथ एण्ड स्टील ट्रेडर्स लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स सिमप्लेक्स फार्मा-केम लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/649/40-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सिमप्लेक्स फार्मा-केम लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स फ्रेण्डली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/650/41-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स फ्रेण्डली एग्रो इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स परीक्रमा इंजीनियरींग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/651/42-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स परीक्रमा इंजीनियरींग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स विघ्नहर फायनान्शियल कंसल्टेन्सी एण्ड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/652/43-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स विघ्नहर फायनान्शियल कंसल्टेन्सी एण्ड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स असाउल इलैक्ट्रीकल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/653/44-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स असाउल इलैक्ट्रीकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स नाइक कैमेरा क्राफ्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/654/45-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स नाइक कैमेरा क्राफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स नल्लाशेठ कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/655/46-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स नल्लाशेठ कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स वेस्टर्न पोल्ट्री फार्म प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/656/47-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स वेस्टर्न पोल्ट्री फार्म प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स सर्वोदेव स्टील ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/657/48-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सर्वोदेव स्टील ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स मिरा लेटर फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/658/49-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मिरा लेटर फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स शारदा सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट (इंडिया) लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/659/50-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स शारदा सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट (इंडिया) लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स इन्जुन इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/660/51-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स इन्जुन इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स सांघवी ऑटोमोबाइल्स एण्ड फायनान्स एंटरप्राइजेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/661/52-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सांघवी ऑटोमोबाइल्स एण्ड फायनान्स एंटरप्राइजेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स अनमोल फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/662/53-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स जगन्नाथ शेल्टर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स ओलम्पिक इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/670/61-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ओलम्पिक इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स एक्सपर्ट इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/673/64-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एक्सपर्ट इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स एक्सक्विजीट इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/671/62-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एक्सक्विजीट इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स बेलफिनो-इन्वेस्टमेंट एण्ड कॉरपोरेट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/674/65-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स बेलफिनो-इन्वेस्टमेंट एण्ड कॉरपोरेट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स पेंग्वीन इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/672/63-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स पेंग्वीन इस्टेट्स प्राईवेट

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स एजे सेक्युरिटीज एण्ड फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/675/66-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/682/73-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सर्वादेव शिपयार्ड प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स डीएसके केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/683/74-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स डीएसके केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स नोगोर्ग केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/684/75-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स नोगोर्ग केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स रामलिंग पल्प एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/685/76-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स रामलिंग पल्प एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स सारडा वेंचर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/686/77-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सारडा वेंचर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स प्रोटोकंट्रोल मायक्रोटेक (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/687/78-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स प्रोटोकंट्रोल मायक्रोटेक (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स स्टीलटेक इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/688/79-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स स्टीलटेक इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स पुना प्रोफिन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/689/80-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स पुना प्रोफिन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स कल्पवृक्ष अर्थसहाय्य कंपनी लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/690/81-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स कल्पवृक्ष अर्थसहाय्य कंपनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स ग्रेस मल्टीमीडिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/691/82-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ग्रेस मल्टीमीडिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स सारडा मुद्रा विनियोग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/692/83-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सारडा मुद्रा विनियोग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स सारडा फाउंडेशन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/693/84-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सारडा फाउंडेशन प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स ड्यूराफैब कंस्ट्रक्शन एक्विपमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/694/85-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ड्यूराफैब कंस्ट्रक्शन एक्विपमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स बनेश्वर एग्रो प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/695/86-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स बनेश्वर एग्रो प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स जेरबेरा रियल्टर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/696/87-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स जेरबेरा रियल्टर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स उलीकंचन फाईनेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/697/88-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स उलीकंचन फाईनेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स मास्टर लिंक कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/698/89-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मास्टर लिंक कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स केशर एडवर्टाइजिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/699/90-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स केशर एडवर्टाइजिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स जयेन्द्र फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/700/91-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स जयेन्द्र फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स भारती हाईजीन प्रोडक्ट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/701/92-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स भारती हाईजीन प्रोडक्ट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स केपी एक्विज़म प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/702/93-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स केपी एक्विज़म प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स लाईफ लिंक एण्ड हैल्थ केयर सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/703/94-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स लाईफ लिंक एण्ड हैल्थ केयर सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स वालमेट वैल्लिंग (इंडिया) लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/704/95-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स वालमेट वैल्लिंग (इंडिया) लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स विजन रीयलटर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/705/96-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स विजन रीयलटर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स इनटच इंडिया नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/706/97-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स इनटच इंडिया नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स पूणे फ्ल्युअर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/707/98-II--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स पूणे फ्ल्युअर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स भीमाशंकर एग्रीकल्चर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/708/99-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स भीमाशंकर एग्रीकल्चर प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स जे एण्ड सी हैल्थ केयर प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/709/100-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स जे एण्ड सी हैल्थ केयर प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स शिवम टेलीकम्यूनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/710/101-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स शिवम टेलीकम्यूनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स यश सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/711/102-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स यश सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स अष्ट लोकमान्य बाजार लिमिटेड के विषय में
पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/712/103-II--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अष्ट लोकमान्य बाजार लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स आशीष बायो-मेडिकल प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/713/104-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स आशीष बायो-मेडिकल प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स साज आयरन एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/714/105-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स साज आयरन एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स पूणे एडवांस्ड ऑडीटरी रिसर्च प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/715/106-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स पूणे एडवांस्ड ऑडीटरी रिसर्च प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स सिरका सोल्यूशंस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/716/107-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सिरका सोल्यूशंस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स टेकयॉन इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/717/108-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स टेक्यॉन इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स हिम टैक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/718/109-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स हिम टैक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स श्री साईकृपा बायोफर्टिलाइजर्स लिमिटेड के विषय में
पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/719/110-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स श्री साईकृपा बायोफर्टिलाइजर्स लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स टेक्नोसोफ्ट एडवांस सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/720/111-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स टेक्नोसोफ्ट एडवांस सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स पूर्वा हॉस्पीटल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/721/112-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स पूर्वा हॉस्पीटल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स पुनर्वसु एग्रो प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/722/113-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स पुनर्वसु एग्रो प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स गामाकॉन (इंडिया) सोफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/723/114-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गामाकॉन (इंडिया) सोफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स सुरभि होटल प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/724/115-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सुरभि होटल प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स जेजु पोलीमर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/725/116-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स जेजु पोलीमर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स एग्रो-आयुर्वेदिका कंसलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/726/117-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एग्रो-आयुर्वेदिका कंसलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स संगम प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/727/118-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स संगम प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स एक्यूरेट टेक्निकल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/728/119-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एक्यूरेट टेक्निकल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स विश्वा सोफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/729/120-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स विश्वा सोफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स यूनिये इन्फ्रा कंस्ट्रक्शंस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/730/121-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स यूनिये इन्फ्रा कंस्ट्रक्शंस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स युक्ति सॉफ्टेक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/731/122-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स श्रीकृपा मार्केटर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स जिन्दल मित्तल प्रॉपर्टीस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/739/130-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स जिन्दल मित्तल प्रॉपर्टीस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स एसके न्यूट्रीएन्ट फूड्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/740/131-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एसके न्यूट्रीएन्ट फूड्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स थर्मो जनरिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/741/132-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स थर्मो जनरिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स परशुराम एण्ड रिता जाधव मल्टीपरपज हॉल प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/742/133-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स परशुराम एण्ड रिता जाधव मल्टीपरपज हॉल प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स अशोक इ-इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/743/134-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अशोक इ-इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स किमैक्स मेरीटाईम कंपनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/744/135-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स किमैक्स मेरीटाईम कंपनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स सविता पेपर ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/745/136-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सविता पेपर ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स विमलसरोवर रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/746/137-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स विमलसरोवर रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स एमडीएल हैल्थ केयर सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/747/138-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एमडीएल हैल्थ केयर सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स पद्मानन्द डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/748/139-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स पद्मानन्द डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स एरो-सॉफ्ट इन्फो सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/749/140-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एरो-सॉफ्ट इन्फो सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स सिद्धी रिकवरी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/750/141-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सिद्धी रिकवरी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स बालाजी पेपर शॉपी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/751/142-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स बालाजी पेपर शॉपी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स लोटस कम्प्यूटर्स (कोल्हापुर) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/752/143-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स लोटस कम्प्यूटर्स (कोल्हापुर) प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स रिया हर्बल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/753/144-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स रिया हर्बल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स ग्लासनॉस्ट सोल्यूशंस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/754/145-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ग्लासनॉस्ट सोल्यूशंस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स आर डी एक्सप्रेस सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/755/146-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स आर डी एक्सप्रेस सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स गुरुदेव डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/756/147-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स गुरुदेव डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स फाल्के जाधन इथेनॉल एण्ड एग्रो प्रोसेसिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/757/148-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स फाल्के जाधन इथेनॉल एण्ड एग्रो प्रोसेसिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स कोरमाज बीयर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/758/149-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स कोरमाज बीयर प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स एन्टॉप पेट्रो केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/759/150-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एन्टोप पेट्रो केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स जय एक्सप्रेस सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/760/151-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स जय एक्सप्रेस सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स तिर्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/761/152-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स तिर्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स जोतीलिंग सिस्टम एण्ड सोल्यूशंस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/762/153-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स जोतीलिंग सिस्टम एण्ड सोल्यूशंस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स एस-फाइव सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/763/154-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एस-फाइव सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स श्री बालाजी मंगल कार्यालय प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/764/155-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स श्री बालाजी मंगल कार्यालय प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स पारटेक्स पार्टीसिपेटरी टेक्नोलोजीस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/765/156-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स पारटेक्स पार्टीसिपेटरी टेक्नोलोजीस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स प्लगीन इलेक्ट्रॉनिक्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/766/157-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स प्लगीन इलेक्ट्रॉनिक्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स पैन-सेट इन्फ्राटेक लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/767/158-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स पैन-सेट इन्फ्राटेक प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स ओम माइक्रो सिस्टम्स एण्ड कन्ट्रोल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/768/159-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ओम माइक्रो सिस्टम्स एण्ड कन्ट्रोल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स झोटिंग्स एस एन फूड्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/769/160-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स झोटिंग्स एस एन फूड्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स जानीज मॉल कम सिनेप्लेक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/770/161-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स जानीज मॉल कम सिनेप्लेक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स इन्टेलीकॉर्प टेक्नोलॉजीस (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/771/162-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स इन्टेलीकॉर्प टेक्नोलॉजीस (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स जेनएक्स बीपीओ सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/772/163-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स जेनएक्स बीपीओ सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स आरोही सोफ्टवेयर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/773/164-I--कम्पनी

अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स आरोही सोफ्टवेयर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स अमिना प्रोपर्टीस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/774/165-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अमिना प्रोपर्टीस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स श्री स्वामी समर्थ हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/775/166-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स श्री स्वामी समर्थ हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स एस. ए. मगदुम प्रमोटर्स, इंजीनियर्स एण्ड कॉन्ट्रैक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/776/167-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एस. ए. मगदुम प्रमोटर्स, इंजीनियर्स एण्ड कॉन्ट्रैक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स कल्पन टेक्नोलोजीस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/777/168-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स कल्पन टेक्नोलोजीस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स एरो मेटैलिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/778/169-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एरो मेटैलिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स वेबसॉफ्ट मीडिया नेट सोल्यूशंस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/779/170-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स वेबसॉफ्ट मीडिया नेट सोल्यूशंस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स प्लायड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/780/171-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स प्लायडा सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स स्मार्ट ऑफिस सोल्यूशंस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/781/172-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स स्मार्ट ऑफिस सोल्यूशंस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स दरंदले होटल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/782/173-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स दरंदले होटल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स आउटबाउंड ट्रेनिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/783/174-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स आउटबाउंड ट्रेनिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स लोधा शुगर मैन्यूफैक्चरिंग लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/784/175-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स लोधा शुगर मैन्यूफैक्चरिंग लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स मयूर प्रिंटर्स (पुणे) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/785/176-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मयूर प्रिंटर्स (पुणे) प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स स्वस्थ इश्योरेंस सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/786/177-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स स्वस्थ इश्योरेंस सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स नोर्थ सी वेन्टीलेशन इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/787/178-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स नोर्थ सी वेन्टीलेशन इंडिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स मनीमेक्स पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के
विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/788/179-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मनीमेक्स पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स सपकाल बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/789/180-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सपकाल बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स ए-वन सिक्योरिटी एण्ड इन्वेस्टीगेशन्स प्राईवेट लिमिटेड के
विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/790/181-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ए-वन सिक्योरिटी एण्ड इन्वेस्टीगेशन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स बलीराजा शेतकरी बाजार लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/791/182-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स बलीराजा शेतकरी बाजार लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स कायगांवकर ज्वैलर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/792/183-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स कायगांवकर ज्वैलर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स सिद्धिविनायक सोल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/793/184-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सिद्धिविनायक सोल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स फिल्ड्रूम कंस्ट्रक्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/794/185-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स फिल्ट्रम कंस्ट्रक्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स श्री लक्ष्मी फ्रूट एण्ड वेजिटेबल प्रोसेसिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/795/186-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स श्री लक्ष्मी फ्रूट एण्ड वेजिटेबल प्रोसेसिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स क्लिनीसर्च बायोटेक्नोलोजीस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/796/187-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स क्लिनीसर्च बायोटेक्नोलोजीस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स बेल्लेव्यू केम सोफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/797/188-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स बेल्लेव्यू केम सोफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स एंट्रीयम हॉस्पिटैलिटी एण्ड प्रोपर्टी मैनेजमेंट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/798/189-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एंट्रीयम हॉस्पिटैलिटी एण्ड प्रोपर्टी मैनेजमेंट प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स कोरवेट्ट सोल्यूशंस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/799/190-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स कोरवेट्ट सोल्यूशंस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स इन्फोलेक्स रिसर्च एण्ड एनालिसिस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/800/191-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स इन्फोलेक्स रिसर्च एण्ड एनालिसिस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स सहारा डेयरी प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/801/192-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सहारा डेयरी प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स अगस्त इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/802/193-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अगस्त इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स श्री कृष्णा इवेन्ट मैनेजमेंट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/803/194-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स श्री कृष्णा इवेन्ट मैनेजमेंट प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स इनारा टेक्नोलोजीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/804/195-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स इनारा टेक्नोलोजीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स श्रृष्टी पोल्यूटेक कंसल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/805/196-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स श्रृष्टी पोल्यूटेक कंसल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स किप इंफोर्मेशन टेक्नोलोजी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/806/197-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स किप इंफोर्मेशन टेक्नोलोजी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स ए-1 फ्लोरा प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/807/198-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ए-1 फ्लोरा प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स अष्टविनायक चिट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/808/199-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अष्टविनायक चिट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स सप्तरुची होटल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/809/200-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सप्तरुची होटल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स डोंगवू इलेक्ट्रोनिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/810/201-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स डोंगवू इलेक्ट्रोनिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स पुर्णेश्वर एग्रो एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/811/202-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स पुर्णेश्वर एग्रो एक्सपोर्ट्स लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स वर्टिक्स टेक्नोलोजीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/812/203-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स वर्टिक्स टेक्नोलोजीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स एस.मैक्रो इंजीनियर्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/813/204-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एस.मैक्रो इंजीनियर्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स बनेश्वर कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/814/205-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स बनेश्वर कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स मिस्टीक इंडिया टारुनशिप्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/815/206-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में

एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मिस्ट्रीक इंडिया टारुनशिप्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स एसपीआर पैकेजिंग सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी.पी./ई.ई.एस.-2010/560(5)/816/207-I--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एसपीआर पैकेजिंग सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कटक-753001, दिनांक 15 नवम्बर 2011

सं. आर. ओ. सी./560(3)/2805--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित कम्पनियों के नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिए जाएंगे और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :-

क्र.सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	15-008161	मैसर्स एलॉयेन्स ब्लैकपर्ल प्राईवेट लिमिटेड
2.	15-008175	मैसर्स एश्योरेन्स इंजीनियरिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
3.	15-008179	मैसर्स मयसन होटल्स एण्ड रिसार्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	15-008180	मैसर्स कामधेनु मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	15-008181	मैसर्स मालती कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	15-008183	मैसर्स साइनोसियोर इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्राईवेट लिमिटेड
7.	15-008188	मैसर्स एस. एस. आटोमोबाईल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
8.	15-008189	मैसर्स अस्तिक नियरो स्कैन रिसर्च एण्ड डाईग्नोस्टिक प्राईवेट लिमिटेड
9.	15-008194	मैसर्स नन्दीघोष सेल्स एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
10.	15-008197	मैसर्स शान्तीलता माईन्स एण्ड मिनरेल्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	15-008203	मैसर्स यूबीक जेनेसीस लिमिटेड
12.	15-008207	मैसर्स एवरग्रीन बायो प्लानटेक प्राईवेट लिमिटेड
13.	15-008213	मैसर्स पार शेयर प्राईवेट लिमिटेड
14.	15-008219	मैसर्स ई. टेक्नोवर्ब प्राईवेट लिमिटेड
15.	15-008226	मैसर्स कलिंगा रूट्स प्राईवेट लिमिटेड
16.	15-008227	मैसर्स महा पर्वत स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड
17.	15-008228	मैसर्स दुर्गा देवी फूड्स प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
18.	15-008239	मैसर्स एक्सीस आउटसोर्सिंग प्राईवेट लिमिटेड
19.	15-008241	मैसर्स बी. पी. एल. रीयल स्टेट प्राईवेट लिमिटेड
20.	15-008242	मैसर्स महाप्रभु प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
21.	15-008245	मैसर्स नीलान्चल टेली नेटवर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
22.	15-008249	मैसर्स जलेश्वर कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड
23.	15-008262	मैसर्स शेफा मल्टी मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
24.	15-008264	मैसर्स गन्जम जिरकोन प्राईवेट लिमिटेड
25.	15-008269	मैसर्स गांगेया एग्रो इण्डिया लिमिटेड
26.	15-008273	मैसर्स स्वागत एण्ड कम्पनी मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड
27.	15-008274	मैसर्स धुबरी इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
28.	15-008278	मैसर्स कलिंगा एस्सेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
29.	15-008284	मैसर्स एस. एस. प्लेसमेन्ट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
30.	15-008285	मैसर्स रियलटायम होलीडे होम एण्ड मार्केट कम्प्लेक्स प्राईवेट लिमिटेड
31.	15-008286	मैसर्स परिचय होलीडे होम प्राईवेट लिमिटेड
32.	15-008288	मैसर्स यूनायटेड टीम सॉल्युशंस प्राईवेट लिमिटेड
33.	15-008290	मैसर्स सीमान्चल सिक्योरिटी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
34.	15-008298	मैसर्स आम्बुशा नेचर्स मैनेजमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
35.	15-009395	मैसर्स डेनिजेन्स इंटरप्राईसेस प्राईवेट लिमिटेड

सी. के. दास
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उड़ीसा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

कटक-753001, दिनांक 17 नवम्बर 2011

सं. आर.ओ.सी./560(3)/2840--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित कंपनियों का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किए गए तो रजिस्टर से काट दिए जाएंगे और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :--

क्रम सं.	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	15-008300	मैसर्स एचीवर एसोसियेट मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
2.	15-008309	मैसर्स न्यू एम्बीशन मार्केटिंग फाउन्डेशन प्राईवेट लिमिटेड
3.	15-008313	मैसर्स एकदन्त पावर प्राईवेट लिमिटेड
4.	15-008314	मैसर्स फ्यूल मैनेजमेन्ट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
5.	15-008322	मैसर्स झारसुगुडा प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
6.	15-008330	मैसर्स कामया एन्टरटेनमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
7.	15-008331	मैसर्स सम्पर्क एक्जिम प्राईवेट लिमिटेड
8.	15-008332	मैसर्स फोर्स 24 x 7 सिक्योरिटी एण्ड कंसलटेन्सी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
9.	15-008333	मैसर्स प्रीतीरुषा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड
10.	15-008335	मैसर्स आमलन प्रोमोटर्स एण्ड डेवलेपर्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	15-008342	मैसर्स सिद्धा विनायक ऑक्सीजन प्राईवेट लिमिटेड
12.	15-008348	मैसर्स शक्ति एसेम्बलिंग एण्ड सेलिंग प्राईवेट लिमिटेड
13.	15-008349	मैसर्स सत्यासाई ट्रेडलिंग प्राईवेट लिमिटेड
14.	15-008357	मैसर्स श्री वेंकटेश्वर फूट एक्सट्रैक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
15.	15-008359	मैसर्स जगत होलीस्टीक हेल्थकेयर प्राईवेट लिमिटेड
16.	15-008367	मैसर्स जयवीर सिक्योरिटी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
17.	15-008369	मैसर्स एसी इनिशियेटिव्स प्राईवेट लिमिटेड
18.	15-008378	मैसर्स श्रीमा आयरन्स प्राईवेट लिमिटेड
19.	15-008379	मैसर्स प्रशान्त डेयरी फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड
20.	15-009242	मैसर्स एलचेमी मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड
21.	15-003435	मैसर्स पान्डे शैल्टर एण्ड कंस्ट्रक्शंस प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
22.	15-003448	मैसर्स इंगल्स व्यू सिक्योरिटी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
23.	15-003717	मैसर्स क्लाक्सिक एक्क्या लिमिटेड
24.	15-003723	मैसर्स रिरच एक्वाग्रो प्राईवेट लिमिटेड
25.	15-003762	मैसर्स महानदी प्लांटेशंस लिमिटेड
26.	15-003775	मैसर्स सेवती देवी मिडिया प्राईवेट लिमिटेड
27.	15-003865	मैसर्स लोटस फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड
28.	15-003892	मैसर्स समाधान एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड
29.	15-003962	मैसर्स एक्वाटीक फार्म्स लिमिटेड
30.	15-003966	मैसर्स सुतार-एग्रो केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
31.	15-004090	मैसर्स इंडियन रेयर मेटल्स लिमिटेड
32.	15-004167	मैसर्स स्वागतीका इलैक्ट्रोनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
33.	15-004177	मैसर्स माईक्रो टेक प्राईवेट लिमिटेड
34.	15-004184	मैसर्स सनशाइन गार्डन्स प्राईवेट लिमिटेड
35.	15-004194	मैसर्स पाण्डा ब्रॉडर्स प्राईवेट लिमिटेड

सी. के. दास
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उड़ीसा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

कटक-753001, दिनांक 18 नवम्बर 2011

सं. आरओसी/560(3)/2876--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित कंपनियों का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किए गए तो रजिस्टर से काट दिए जाएंगे और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :--

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	15-004264	मैसर्स घंटेश्वरी फ्लोर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	15-004345	मैसर्स श्रीपति कंसलटेन्सी एण्ड फाईनेन्शियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
3.	15-004376	मैसर्स इन्टरलिंग प्राईवेट लिमिटेड
4.	15-004398	मैसर्स एस. एस. केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	15-004408	मैसर्स कलिंगा कम्प्यूटर प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
6.	15-004434	मैसर्स देबिन्द्रा फार्म प्राईवेट लिमिटेड
7.	15-004462	मैसर्स सिग्नेट मेटल्लर्जी प्राईवेट लिमिटेड
8.	15-004596	मैसर्स डे बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	15-004639	मैसर्स ग्रीन इस्टेट्स (इण्डिया) लिमिटेड
10.	15-004647	मैसर्स गजराज इस्टेट डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	15-004749	मैसर्स बिनोरी बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
12.	15-004753	मैसर्स सन्मिन्त मर्कैटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	15-004762	मैसर्स चिन्दानंदा एग्रो इंडिया लिमिटेड
14.	15-004765	मैसर्स टीम एज्युकेशन सेंटर प्राईवेट लिमिटेड
15.	15-004792	मैसर्स बिकास इण्डिया एग्रो इस्टेट लिमिटेड
16.	15-004807	मैसर्स येनडी राहुल इंडस्ट्रीयल गैस प्राईवेट लिमिटेड
17.	15-004966	मैसर्स वैराईटी होम्स बिल्डर्स एण्ड प्रोमोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
18.	15-005113	मैसर्स जौली ब्रीवेरीज प्राईवेट लिमिटेड
19.	15-005168	मैसर्स मार्क्रोसेम कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
20.	15-005241	मैसर्स स्केयर-एस इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
21.	15-005243	मैसर्स मीनाक्षी बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
22.	15-005255	मैसर्स आकाश आशियाना प्राईवेट लिमिटेड
23.	15-005287	मैसर्स सनसिटी ई मार्ट प्राईवेट लिमिटेड
24.	15-005288	मैसर्स प्रियादर्शी रियलटर्स प्राईवेट लिमिटेड
25.	15-005299	मैसर्स सनमान सेल्स एण्ड इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
26.	15-005315	मैसर्स बलिस मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड
27.	15-005340	मैसर्स प्रह्लाद बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
28.	15-005343	मैसर्स भद्रक ऑक्सीजन प्राईवेट लिमिटेड

सी. के. दास
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उड़ीसा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

चेन्नै, दिनांक 3 नवम्बर 2011

सं.48004 से 48977 तक/560(3)/स्योमोटो-2011--कम्पनी
अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा

यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित
कम्पनियों के नाम नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किये गये तो रजिस्टर
से काट दिये जाएंगे और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :--

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	48004	मैसर्स स्टार कैरियर नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड
2.	48006	मैसर्स सेवंध सेन्स मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
3.	48008	मैसर्स हैज सेफ्टी एण्ड एनवायरमेंट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
4.	48009	मैसर्स ओएसिस ऑटो इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	48010	मैसर्स जर्न एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	48015	मैसर्स आर. आर. नेटवर्क सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
7.	48018	मैसर्स रेगालिया प्रोमार्स सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
8.	48030	मैसर्स डाईनासिस सोल्युशन वैली प्राईवेट लिमिटेड
9.	48032	मैसर्स टेन्टाकिल (सॉफ्टवेयर) टेक्नोलॉजिस प्राईवेट लिमिटेड
10.	48043	मैसर्स रासाश्री एक्सपोर्ट्स एण्ड इम्पोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	48045	मैसर्स सृष्टि कॉरपोरेट सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
12.	48048	मैसर्स बेलिंक कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	48063	मैसर्स हिन्दुस्तान ओसियन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
14.	48087	मैसर्स टगाच टेक्नोलॉजिस प्राईवेट लिमिटेड
15.	48091	मैसर्स सिद्धा एक्वा मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
16.	48099	मैसर्स मलोलन मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
17.	48102	मैसर्स राडान इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
18.	48111	मैसर्स नन्दा सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड
19.	48114	मैसर्स नेस्ट्स फ्लैक्सीपैक प्राईवेट लिमिटेड
20.	48117	मैसर्स नोवा मेडीकल सिस्टम्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
21.	48151	मैसर्स ब्रैन्चिप सॉफ्टवेयर सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड
22.	48153	मैसर्स वेस्टर्न एक्सप्रेस क्लोथिंग प्राईवेट लिमिटेड
23.	48162	मैसर्स युनिक फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
24.	48167	मैसर्स शाद्स एन स्टिल्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
25.	48177	मैसर्स तिरुवेर्काडू करुमारिम्मान चिट्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
26.	48214	मैसर्स नास्सेन्ट टेक्नोलॉजी सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड	56.	48572	मैसर्स क्वाड इन्टरप्राइसेस सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
27.	48224	मैसर्स भाबीस फूड्स प्राईवेट लिमिटेड	57.	48580	मैसर्स प्रोकुरा मैनेजमेन्ट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
28.	48229	मैसर्स मदर अरबिन्दो इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड	58.	48581	मैसर्स रिश्वीन मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
29.	48240	मैसर्स कार्टिक सिविल कॉन्स्ट्रक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड	59.	48582	मैसर्स फूडजोन मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
30.	48275	मैसर्स कैटल लैडर हाऊस प्राईवेट लिमिटेड	60.	48595	मैसर्स मिस्टीकल एक्सप्रेस प्राईवेट लिमिटेड
31.	48278	मैसर्स वेस्ट कोस्टल अम्युजमेन्ट पार्क प्राईवेट लिमिटेड	61.	48596	मैसर्स चेन्नई वॉटर टेक्नोलॉजिस प्राईवेट लिमिटेड
32.	48279	मैसर्स पर्टीनेन्ट साईबर सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड	62.	48597	मैसर्स मेकवीन मार्केटर्स प्राईवेट लिमिटेड
33.	48296	मैसर्स चैलन्ज.नेट प्राईवेट लिमिटेड	63.	48601	मैसर्स श्रीयास इंफोरमैटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
34.	48305	मैसर्स क्लीयर रॉक प्राईवेट लिमिटेड	64.	48610	मैसर्स बी. वी. वी. इंजीनियर्स एण्ड प्रोमोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
35.	48312	मैसर्स प्लान्टमेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिस प्राईवेट लिमिटेड	65.	48620	मैसर्स महाराज एग्रो टेक प्राईवेट लिमिटेड
36.	48318	मैसर्स डायनामिक एयर कनेक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड	66.	48622	मैसर्स ट्वीलाइट इक्विपमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
37.	48328	मैसर्स केरला फैशन ज्वेलरी पुरसई प्राईवेट लिमिटेड	67.	48637	मैसर्स कोहरेट सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड
38.	48330	मैसर्स भाटिया रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	68.	48638	मैसर्स याकिनाट्स ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड
39.	48359	मैसर्स स्कट वाटर्स प्राईवेट लिमिटेड	69.	48702	मैसर्स रामकस्तुरी एक्सपोर्ट्स एण्ड इम्पोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
40.	48364	मैसर्स अल-बकवी कॉम्पटेक प्राईवेट लिमिटेड	70.	48709	मैसर्स डिजी डिजाईन टेक्नोलॉजिस प्राईवेट लिमिटेड
41.	48377	मैसर्स श्रीजा होटल्स प्राईवेट लिमिटेड	71.	48712	मैसर्स आरिफ शूज प्राईवेट लिमिटेड
42.	48381	मैसर्स एवरग्रेट बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड	72.	48722	मैसर्स ईस्ट कोस्ट एन्टरटेनमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
43.	48393	मैसर्स सिटी रीच मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	73.	48728	मैसर्स एयरनेट ब्रॉडबैंड कॉम्यूनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
44.	48396	मैसर्स एन. एन. सॉफ्ट टेक प्राईवेट लिमिटेड	74.	48730	मैसर्स अद्वितीया कंज्यूमर मार्केटिंग सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
45.	48435	मैसर्स निशान एक्वा फार्म प्राईवेट लिमिटेड	75.	48738	मैसर्स मरमैड लॉजिस्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
46.	48440	मैसर्स वासन प्रोपर्टीज एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड	76.	48745	मैसर्स मार्शल वाईब्रेशन इंजीनियर्स एण्ड कंसल्टेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
47.	48444	मैसर्स अजय फोरेक्स प्राईवेट लिमिटेड	77.	48762	मैसर्स रियललिंग डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
48.	48454	मैसर्स राजेश्वरी नेट प्राईवेट लिमिटेड	78.	48763	मैसर्स नीरजा लैडर एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
49.	48463	मैसर्स ओपनवर्ल्ड सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड	79.	48769	मैसर्स ट्रेयॉन फर्नीचर इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
50.	48480	मैसर्स एसजे कोरियर लॉजिस्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड	80.	48778	मैसर्स सिमिज अप्पेरल्स प्राईवेट लिमिटेड
51.	48494	मैसर्स सिन्डिया ट्रेडिंग एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	81.	48781	मैसर्स डारमान लॉग इण्डिया ड्राफ्टिंग प्राईवेट लिमिटेड
52.	48522	मैसर्स कन्वरजेन्स टेक्नोलॉजी सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड	82.	48786	मैसर्स आई. टी. ई. कंसल्टेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
53.	48547	मैसर्स जे. वी. मुवी मेकर्स प्राईवेट लिमिटेड	83.	48823	मैसर्स के.टी.सी. मार्केटिंग (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
54.	48561	मैसर्स जॉलीहुड एक्जीम प्राईवेट लिमिटेड	84.	48827	मैसर्स जॉन ऑफ आर्क डिटेक्टिव्स एण्ड सिक्युरिटीज प्राईवेट लिमिटेड
55.	48570	मैसर्स जॉलीहुड इन्टरटेनमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड			

1	2	3
85.	48829	मैसर्स अरूद्रा स्टील रोलिंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
86.	48850	मैसर्स अनवे नेटवर्क मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
87.	48854	मैसर्स टान्डुम कंसल्टेंसी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
88.	48868	मैसर्स वीन्टवीन सोल्युशन्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
89.	48872	मैसर्स टेलुडु सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड
90.	48895	मैसर्स साई ई-सेवा डॉट कॉम प्राईवेट लिमिटेड
91.	48908	मैसर्स कार्पोरेट टूल्स प्राईवेट लिमिटेड
92.	48910	मैसर्स श्री मुथैया कंसलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
93.	48917	मैसर्स बैट-सिटिज नेटवर्क्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
94.	48918	मैसर्स डिजिएज मल्टीमीडिया सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
95.	48921	मैसर्स फुजियन ब्रिक्वेरजेज प्राईवेट लिमिटेड
96.	48941	मैसर्स हाई-रिच इन्फोटेक चेन्नई प्राईवेट लिमिटेड
97.	48953	मैसर्स प्राईम क्लीनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
98.	48954	मैसर्स बालकृष्णा प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
99.	48956	मैसर्स अल्ट्रैमि नेटवर्क्स सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड
100.	48965	मैसर्स जेनरेक्स फार्मा प्राईवेट लिमिटेड
101.	48970	मैसर्स स्कुलिंग इण्डिया डॉट कॉम प्राईवेट लिमिटेड
102.	48971	मैसर्स इथोस टेक्नोलॉजिस प्राईवेट लिमिटेड
103.	48977	मैसर्स टी अरूमदूरै लॉजिस्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड

के. लता परिमलवदना
उप कम्पनी पंजीयक
तमिलनाडु

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi, the 21st October 2011

No. A-60011/27/2011-RTI-Cell (Admn.)—In terms of Section 19(1) of the Right to Information Act, 2005, Shri N. C. Gaur, Joint Secretary (Appointment), UPSC, is hereby designaed as Appellate Authority in respect of the specific subject matters mentioned against his name with immediate effect:—

Name of the Appellate Authority	Subject matter	Name of the CPIO
Shri N. C. Gaur, Joint Secretary (Apptt.)	All matters pertaining to framing and amendment of Recruitment Rules of Group 'A' and 'B' posts	Shri Om Prakash Under Secretary (Recruitment Rules)

K. M. SASIDHARAN
Under Secy. (Admn.)

The 8th November 2011

No. A-60011/27/2011-RTI-Cell (Admn.)—In terms of Section 5(1) of the Right to Information Act, 2005, Shri Neeraj Sachdeva, Under Secretary (Admn.) of the Union Public Service Commission is hereby designated as Central Public Information Officer till further orders in place of Shri K. M. Sasidharan, Under Secretary (Admn. IV & OM&WS) in respect of the specific subject matters mentioned against his name as under:—

Name of the CPIO	Subject matters	Appellate Authority
Shri Neeraj Sachdeva, Under Secretary (Admn.)	All RTI related matters pertaining to Administration, Accounts and Vigilance including all Personnel and Establishment RTI matters of Gazetted and non-Gazetted staff of UPSC	Shri S. B. Saroha, Joint Secretary (AG&V) Tele No. 23386793 Fax No. 23098552

K. M. SASIDHARAN
Under Secy. (Admn. IV & OM&WS)

New Delhi, the 14th November 2011

No. A-60011/27/2011-RTI-Cell (Admn.)—In terms of Section 19(1) of the Right to Information Act, 2005, Shri Shailendra Singh, Joint Secretary (AIS Branch), UPSC, is hereby designaed as Appellate Authority in respect of

the specific subject matters mentioned against his name with immediate effect:—

Name of the Appellate Authority	Subject matter	Name of the CPIO
Shri Shailendra Singh, Joint Secretary (AIS)	All RTI matters pertaining to induction of State Service Officer to All India Services with respect to cadres allotted and the RTI matters related to Nodal Legal Section.	Shri Dinesh Kumar, Deputy Secretary (AIS)
Shri Shailendra Singh, Joint Secretary (AIS)	All RTI matters pertaining to induction of State Service Officer to All India Services with respect to cadres allotted.	Ms. Rashmi Sinha, Deputy Secretary (AIS)

NEERAJ SACHDEVA
Under Secy. (Admn.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SARDAR VALLABHBHAI PATEL NATIONAL POLICE ACADEMY

Hyderabad-500052, the 17th November 2011

No. 15011/20/2011-Estt.—The MHA, vide their Letter No. I-21016/35/2010-IPS.III dated 23rd May, 2011, have appointed Smt. Malini Agarwal, IPS, (RJ : 94) as Deputy Director in the SVP National Police Academy, Hyderabad on deputation basis in the PB-4, Rs. 37,400—67,000/- with Grade Pay of Rs. 8,900/- with effect from the date she takes over the charge of the post for a period of five years or until further orders, whichever event takes place earlier on usual terms and conditions of deputation.

2. In compliance of MHA's letter, Smt. Malini Agarwal, IPS (RJ : 94) has taken over the charge of Deputy Director in the Academy with effect from the forenoon of 4th November, 2011.

V. N. RAI
Director

DIRECTORATE GENERAL,

CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

New Delhi-110003, the 15th November 2011

No. O.II.3897/11-Pers (MOs)—The President is pleased to appoint Dr. Hemendra Kumar as Medical Officer (Assistant Commandant) in Central Reserve Police Force in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay Rs. 5,400/- in a temporary capacity from the forenoon of 08.11.2011 or till further orders. He has reported/joined in CH, CRPF, Muzaffarpur.

R. N. MISRA
DIGP (Pers.)

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL
(CIVIL AUDIT), ORISSA

Bhubaneswar, the 8th November 2011

No. Admn (CA)-3-1/Vol.X/1709—In pursuance of OOC No. 752 dated 28.10.2011 communicated vide Memo No. Admn (CA)-3-1/Vol.X/1635 dated 28.10.2011, the following officials on their promotions have assumed charge as Assistant Audit Officer in Pay Band-2 (Rs. 9,300—34,800/-) with Grade Pay of Rs. 4,800/- with effect from the dates noted against each:—

Sl. No.	Name	Date of Joining as Asstt. Audit Officer
	S/Shri	
1.	Ms. Saraswati Soren	28.10.2011 (AN)
2.	Pabitra Mohan Naik	28.10.2011 (AN)
3.	Dilip Kumar Hazary	31.10.2011 (FN)
4.	Manoranjan Tripathy	28.10.2011 (AN)
5.	Surjya Kumar Garud	28.10.2011 (AN)
6.	Shashwat Satyajit Harichandan	31.10.2011 (FN)

Sd/- ILLEGIBLE
Audit Officer/Admn.

The 14th November 2011

No. Admn (CA)17-2(AO)/Vol.VII/1749—In pursuance of OOC No. 753 dated 28.10.2011 communicated vide Memo No. Admn (CA)-17-2(AO)/Vol.VII/1637 dated 28.10.2011, the following Asstt. Audit Officers on promotion have assumed charge as Audit Officer (Civil) in PB-2 (Rs. 9,300—34,800/-) with corresponding Grade Pay of Rs. 5,400/- with effect from the date as indicated against each:—

Sl. No.	Name	Date of taking over charge as Audit Officer
	S/Shri	
1.	Ashok Kumar Nanda	01.11.2011 (FN)
2.	Angad Nag	01.11.2011 (FN)
3.	Arun Kumar Sethy	01.11.2011 (FN)
4.	Upendra Nath Das	01.11.2011 (FN)
5.	Udaynath Patra	01.11.2011 (AN)

R. K. DAS
Sr. Audit Officer/Admn. (CA)

OFFICE OF THE PR. ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
WEST BENGAL

Kolkata-700001, the 8th November 2011

No. Admn.I/1038-XXVII/2011-2012/1400—The Accountant General (A&E), West Bengal is pleased to promote Smt. Nandita Munshi & Shri Nandalal Rakshit, both Asstt. Accounts Officers as Accounts Officers in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay of Rs. 5,400/- per month with effect from 08.11.2011 (FN) or the date of taking over the charge, whichever is later.

The newly promoted Accounts Officers are posted to Accounts Group with immediate effect.

[Authority : A.G's Order daed 08.11.2011]

A. N. DAS
Dy. Accountant General (Admn.)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL
(CIVIL AUDIT), ANDHRA PRADESH

Hyderabad-500004, the 15th November 2011

No. Admn.I/Prom./5-4/2011-2012/53—The following officials taken on deputation, are absorbed in this office in the Group "B" Gazetted post of "Asstt. Audit Officer (Civil)" with effect from the dates mentioned against their names:—

Sl. No.	Name	Date of Absorption
	S/Shri/Smt./Kum.	
1.	R. S. S. Raghu Prasad	06.03.2009
2.	V. Adisheshaiah	-do-
3.	D. Vaidhyanadham	-do-
4.	P. Srinivasa Rao-I	-do-
5.	S. Pameela Devi	-do-
6.	V. Naga Raj	-do-
7.	G. Sesha Sayini	-do-
8.	C. Kameswari	-do-
9.	T. V. Chandra Mohan Rao	-do-
10.	S. Kesava Reddy	-do-
11.	M. Srinivas Kumar	-do-
12.	C. Sumana	17.03.2009
13.	B. V. V. S. A. M. G. Ravi Kumar	-do-
14.	P. Rama Kiran	06.03.2009

R. RADHAKRISHNAN
Dy. Accountant General (Admn.)

No. Admn.I/Prom./5-4/2011-2012/53—Accountant General is pleased to promote the following officials to officiate as Asstt. Audit Officer (Civil) (Group 'B' Gazetted) in the Pay

Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay Rs. 4,800/- with effect from the dates mentioned against the names:—

Sl. No.	Name	Date of Absorption
1	2	3
	S/Shri/Smt./Kum.	
1.	A. Raja Rao	04.06.2009
2.	Ashish Kumar Dwivedi	-do-
3.	Vijay Gautam	-do-
4.	Mukesh Kumar	-do-
5.	Binit Kumar	-do-
6.	Rakesh Kumar Meena	-do-
7.	S. Letkholun Vaiphei	-do-
8.	Avinash Chandra V. Sagar	-do-
9.	Vijai Kumar	-do-
10.	A. Tirumalesh	-do-
11.	Shailesh Kumar	-do-
12.	Ashish Kumar Srivastava	-do-
13.	Sudhakar Kumar	-do-
14.	Pankaj Kumar Shrivastava	-do-
15.	N. V. S. Nagesh	01.01.2010
16.	Ch. V. S. S. Prasad	-do-
17.	R. Satya Narayana Murthy	-do-
18.	A. Hemanth Kumar	-do-
19.	D. Appa Rao	-do-
20.	V. Krishna Murthy	-do-
21.	R. Srinivasa Rao	-do-
22.	P. Bhujanga Rao	-do-
23.	R. S. Srinivas	-do-
24.	Mohd. Fakruddin	01.12.2010
25.	Vijay Bahadur Varma	-do-
26.	Vijay Yellamelli	-do-
27.	Anil Kumar	-do-
28.	K. Raghu Ram	30.12.2010
29.	G. Srinivasa Rao	-do-
30.	B. Satish Kumar	-do-
31.	R. Amarnath	-do-
32.	N. Srinivasa Rao	-do-
33.	Anil Kumar Kovuru	-do-
34.	G. Manish Kumar	-do-

1	2	3
35.	P. Atchuta Rajesh	30.12.2010
36.	P. Malakondaiah	31.10.2011
37.	K. Gautam Kumar	02.11.2011
38.	S. K. Hussain Ahammed	31.10.2011
39.	Lakshmi V. Ratna Babu	-do-
40.	D. Hema Chaitanya	-do-
41.	P. Venkateswarlu	-do-
42.	V. Nagaraju	-do-
43.	V. Srinivasa Babu	-do-

The above promotions are ordered without prejudice to the claims of their seniors, if any, and subject to the results of the Writ Petitions, if any, pending in the Andhra Pradesh High Court/Supreme Court of India/Central Administrative Tribunal etc.

R. RADHAKRISHNAN
Dy. Accountant General (Admn.)

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai-85, the 11th November 2011

No. PD/2(5)/2011/R-IV/7696—The President is pleased to appoint the undermentioned persons in Bhabha Atomic Research Centre to the posts, in the Pay Band and Grade Pay with effect from the date of appointment as shown in column 3 to 5, until further orders:—

Sl. No.	Name	Appointed as	Pay Band	Date of Appointment
1.	Dr. Padmakar Deorao Ughade	Scientific Officer 'C'	15,600-39,100/- + 5400/- (GP) + NPA	07.07.2011 (FN)
2.	Dr. Ashok T. Kattimani	Scientific Officer 'C'	15,600-39,100/- + 5400/- (GP) + NPA	08.07.2011 (FN)
3.	Dr. Samender Yadav	Scientific Officer 'C'	15,600-39,100/- + 5400/- (GP) + NPA	14.07.2011 (FN)

SHAILAJA PRAKASAM
Dy. Establishment Officer

The 15th November 2011

No. PD/7(29)/2011-R-IV/(SO/G)/99527—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers/Engineers Grade 'F' Pay Band Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay Rs. 8,700/- of the Bhabha Atomic Research Centre as Scientific Officer/Engineer Grade 'G' in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of Rs. 8,900/- in the same

Research Centre with effect from the forenoon of July 1, 2011, except Dr. Pius Illipparampil Chacko, Sl. No. 26 and Shri Vivek Maruti Chavan, Sl. No. 81 whose dates of appointment are with effect from the forenoon of July 11, 2011 and July 4, 2011 respectively, in an officiating capacity, until further orders:—

Sl. No.	Name
1	2
1.	Smt. Leni Ranjith
2.	Shri Patel Kailash Bhairam
3.	Shri Surendra Singh Shivhare
4.	Shri Ratnasingh Isreal Bakhtsingh
5.	Dr. Dibyendu Bhattacharyya
6.	Shri Manjini Chandra
7.	Shri Phool Chand
8.	Shri Sarode Dinesh Madhukar
9.	Dr. (Smt.) Sulekha Mukhopadhyay
10.	Shri Laddha Anand Prabhudayal
11.	Smt. Ranjana Kulgod
12.	Shri T.L. Prasad
13.	Shri Asim Kar
14.	Shri Ramakant Sahu
15.	Shri Vinay Kumar Shrivastava
16.	Dr. Rajendrakumar Balkrishna Oza
17.	Shri Alok Ashok Agashe
18.	Smt. Prafulla Satish
19.	Shri Saju Joy
20.	Dr. Venkateswaran Balagi
21.	Shri Lalit Kumar Rath
22.	Shri Ujjal Kumar Mukherjee
23.	Shri Jayanthi Radhakrishna
24.	Dr. Kumar Narayanswamy
25.	Dr. Nand Lal Misra
26.	Dr. Pius Illipparampil Chacko
27.	Dr. Satyaajeet Chaudhury
28.	Shri Yogendra Dutt Shukla
29.	Dr. (Smt.) Lekha Mandal Chowdhury
30.	Shri Gogate Dilip Narayan
31.	Dr. (Smt.) Sushama Mishra
32.	Dr. Umayadoss Saravana Kumar

1	2
33.	Shri Daniel Babu Perupayikkad
34.	Shri Jayanta Kumar Gayen
35.	Shri Purushottam Kothiramji Nimbulkar
36.	Shri Trilok Singh Verma
37.	Shri Pamidimukkala Venumadhav
38.	Dr. A.V.S.S.N. Rao
39.	Dr. (Smt.) Rita Mukhopadhyaya
40.	Shri Manish Kumar
41.	Dr. (Smt.) Ashwini Jayant Risbud-Khandekar
42.	Dr. Nobhojit Roy
43.	Dr. (Smt.) Pallavi Deepraj Bhandarkar
44.	Dr. Rajeev Kapoor
45.	Shri Anjan Chatterjee
46.	Dr. (Smt.) Roja Gopalakrishnan
47.	Dr. Sanjay Jagannathji Jambhulkar
48.	Dr. (Smt.) Manda Sankari
49.	Shri Pemmaraju Sai Kumar
50.	Dr. Satyaranjan Santra
51.	Shri Jayant Kumar Jain
52.	Shri Puthenparampil Mathai Ouseph
53.	Shri Vijay Dhruvarao Alur
54.	Shri Narasimhan S.
55.	Shri K. Prem Sai
56.	Dr. (Smt.) Madhuri Jayant Kulkarni
57.	Shri Dinesh Kumar Chandraker
58.	Shri Limaye Sanjay Prabhakar
59.	Shri Panwar Sanjay
60.	Shri Sudhir Kumar Bhatia
61.	Shri Nawab Singh Baghel
62.	Dr. Ramesh V. Asopa
63.	Shri Gopalakrishna Ravishankar
64.	Shri P Shanmugavelu
65.	Shri Jainendra Tiwari
66.	Shri Surendra Kumar Agrawal
67.	Shri Susanta Kumar De
68.	Dr. G. Bhaskar Dutt
69.	Dr. Ghasiram Dey
70.	Shri Pushpendra Kumar Sharma

1	2
71.	Dr. Sanjay Vishwanath Thakare
72.	Dr. Anil Kumar Saxena
73.	Shri Brindaban Ghosh
74.	Dr. (Smt.) Gopika Vinod
75.	Shri Pawan Kumar Singh
76.	Shri Rohit Rastogi
77.	Shri Israr Ahmad Ansari
78.	Shri Natarajan Kalyanasundaram
79.	Shri Satish Dhondopant Bharambe
80.	Shri Nirmal Kumar Mandal
81.	Shri Vivek Maruti Chavan
82.	Shri Devasish Mitra
83.	Shri Bangalore Venkataramu Dinesh
84.	Shri Rajesh Kumar Singh
85.	Dr. Ranjan Mittal
86.	Dr. Rakesh Kumar Bajpai
87.	Dr. K. Gopinath Bhushan
88.	Kum. Narayanan Padma
89.	Shri Prakash Gidomal Abhichandani
90.	Shri Ravisankar Eddakkunni
91.	Shri Gayan Prakash Gupta
92.	Shri P.H. Thyagaraju
93.	Shri Santosh Kumar Satpati
94.	Shri Birendra Narayan Singh
95.	Dr. T. Subba Rao

SHAILAJA PRAKASAM
Dy. Establishment Officer

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
(DIRECTORATE OF PURCHASE & STORES)

Mumbai-400094, the 15th November 2011

Ref. DPS/11006/Rectt./5366—The President is pleased to appoint Shri N. Subramani, Accounts Officer (PB-2 Rs. 9,300—34,800/- + Grade pay Rs. 5,400), DPS, Mumbai, as Senior Accounts Officer in the Pay Band (PB-3) Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 5,400/-, in the same Unit, with effect from the forenoon of 1st July, 2010 until further orders.

CATHERINE RAJ
Admn. Officer-III

INDIRA GANDHI CENTRE FOR ATOMIC RESEARCH

Kalpakkam-603102, the 24th October 2011

No. IGCAR/A-11013/OCES-2010/2011-R/1335—The President is pleased to appoint the undermentioned Officers in Indira Gandhi Centre for Atomic Research, Kalpakkam of Department of Atomic Energy as Scientific Officers/Engineers Grade 'C' on an initial Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- with the Grade Pay of Rs. 5,400/- with effect from the forenoon of 1st September 2011 in a temporary capacity until further orders:—

Sl. No.	IC.No./Section	Name	D.O.B.	Basic Pay with Incr. + G.P.
S./Sh./Smt.				
1.	10317/CD/EIG	T.S. Shri Krishnan	12.11.88	Rs. 22,890/-
2.	10318/MPD/MSG	Renjith Ramachandran	25.05.86	Rs. 22,890/-
3.	10319/SND/MSG	Kishore Kumar Madapu	05.04.83	Rs. 22,890/-
4.	10320/FchD/CG	Chinaraga Pitchaiah K.	22.09.87	Rs. 22,890/-
5.	10321/PMG/MMG	Raj Narayan Hajra	17.05.86	Rs. 22,890/-
6.	10322/FRFCF	Amit Kumar Dash	17.01.89	Rs. 22,890/-
7.	10323/LMSCD/CG	Shyam Kumar S.	15.02.85	Rs. 22,890/-
8.	10324/RIRD/MMG	Jobby C. Johnson	18.11.87	Rs. 22,890/-
9.	10325/MMD/MMG	Sainath G.	14.01.88	Rs. 22,890/-
10.	10326/STG/FRTG	Nagaraju Bekkenti	07.05.88	Rs. 22,890/-
11.	10327/EIG	S. Lakshmi Prasad	21.09.84	Rs. 22,260/-
12.	10328/RRDD/RpG	Chirantan Pramanik	02.03.88	Rs. 22,260/-
13.	10329/RTSD/EIG	Sujith K.R.	15.10.86	Rs. 22,890/-
14.	10330/ID&SD/ FRTG	Subramanya Deepak M.V.	19.09.89	Rs. 22,890/-
15.	10331/FRFCF	Anurag Singh Bhadoriya	05.07.88	Rs. 22,260/-
16.	10332/NDED/ MMG	Gopinath Shit	12.05.88	Rs. 22,260/-
17.	10333/RRDD/ RpG	Ramakrishna Reddy Sareddy	10.07.85	Rs. 22,890/-
18.	10334/RPhG/REG	Kum. Kapu Yernamma	15.06.86	Rs. 22,890/-
19.	10335/CDG/FRTG	Kum. Jinimol Joy	22.04.85	Rs. 22,890/-
20.	10336/MCD/CG	Kum. Shehanaz Bano	02.01.87	Rs. 22,890/-
21.	10337/NSEG	Ashish Kumar Shukla	01.10.86	Rs. 22,890/-
22.	10338/MMG	Venkata Krishna Kishore G.	16.05.86	Rs. 22,260/-
23.	10339/EIG	D.N.V.R. Subrahmanyam	30.09.84	Rs. 22,890/-
24.	10340/MSG	Radhakrishna B.	27.09.87	Rs. 22,260/-
25.	10341/NSEG	Kum. Snehalatha V.	13.02.86	Rs. 22,890/-
26.	10342/RSEG/REG	Kum. Sreeja Raj Menon	23.04.87	Rs. 22,890/-
27.	10343/EIG	Sh. Nakul Raj Sethi	07.01.86	Rs. 22,890/-

O.K. SATHIAN
Chief Admn. Officer

DEPARTMENT OF SPACE

(VIKRAM SARABHAI SPACE CENTRE)

Thiruvananthapuram-695022, the 13th October 2011

No. VSSC/EST/F/1(17)—Cheif Controller, Vikram Sarabhai Space Centre (VSSC) hereby appoints on promotion the following Personal Assistants as Personal Secretary in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- in VSSC with effect from the dates shown against their names, until further orders:—

Sl. No.	Name	Division	With effect from
1.	Smt. Chandrika Devi R.	QMPG	01.07.2010
2.	Smt. Parvathy J.	BMPD	03.01.2011
3.	Shri Rajagopalan T.	SMG	01.03.2011
4.	Smt. Anandavally S.	SEIG	02.05.2011

R. RAVEENDRAN
Admin. Officer

The 21st October 2011

No. VSSC/EST/F/1(17)—Cheif Controller, Vikram Sarabhai Space Centre (VSSC) hereby appoints on promotion the following Personal Assistants as Project Personal Secretary in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- in VSSC with effect from the dates shown against their names, until further orders:—

Sl. No.	Name	Division	With effect from
1.	Shri Viswanathan S	MVIT	01.07.2010
2.	Smt. Sarojiny KP	ISDTF	02.08.2010
3.	Smt. Ambika VK	CSTG	01.10.2010
4.	Shri Govindan KK	ACC	03.01.2011
5.	Shri Sudhakaran Nair A	CON	03.01.2011

R. RAVEENDRAN
Admin. Officer

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Easy Build Tech Private Limited

New Delhi-110019, the 15th November 2011

No. ROC/560(5)/149290—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Easy Build Tech Pvt. Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

ANITA KLAIR
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the
following Companies

Kolkata-700020, the 21st November 2011

No. RoC/WB/560(5)/(Suo Motto)/2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the names of the following Companies have this day been struck off the register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	CIN No.	Name of Company
1	2	3
1.	071749	M/s. Garnex Exim Private Limited
2.	072148	M/s. Frazer Engineering Private Limited
3.	072673	M/s. Rajadhiraj Commodial Private Limited
4.	072750	M/s. Lake Land Merchants Private Limited
5.	073987	M/s. Starpoint Commodial Private Limited
6.	077619	M/s. Vijaypath Commodities Private Limited
7.	077742	M/s. Optima Exim Private Limited
8.	078077	M/s. Mahalaxmi Suppliers Private Limited
9.	092380	M/s. Darpan Enterprises Limited
10.	092546	M/s. Pom Marketing Private Limited
11.	090472	M/s. Prachie Nirman Private Limited
12.	076039	M/s. Meha Contrade Private Limited
13.	091285	M/s. Juwita Trading Company Private Limited
14.	093508	M/s. Abhi Victuals & Beverages Agency Private Limited
15.	093876	M/s. Sona Mukhi Dealers Private Limited
16.	093878	M/s. Sonamoni Dealers Private Limited
17.	094890	M/s. Eco-Growth Marketing Private Limited
18.	094432	M/s. Jayjeet Logistics Private Limited
19.	094053	M/s. Suraj Express Leisure & Holidays Private Limited
20.	091831	M/s. Interra Tele-Media Private Limited
21.	079568	M/s. Alexins Finance Company Limited
22.	071626	M/s. Deeplok Securities Limited
23.	091895	M/s. Linex Information Technology Private Limited
24.	092907	M/s. Tag Datamation Private Limited

1	2	3
25.	076015	M/s. Gallagher Consultants Private Limited
26.	088943	M/s. Redact Systems Private Limited
27.	078197	M/s. Cherish Projects & Resources Private Limited
28.	091927	M/s. Syndicate Infrastructure & Projects Limited
29.	092502	M/s. East Endrs Hospital Cum Research and Education Limited

HARI HARA SAHOO
Asstt. Registrar of Companies
West Bengal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Shillong-793001, the 17th November 2011

No. RoC/SH/560(5)/2011/27—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the following Companies have this day been struck off the register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	CIN No.	Name of Company
1.	009014	M/s. PHW Marketing Private Limited
2.	003153	M/s. Accs Colour Film Private Limited
3.	005106	M/s. Escom Forms Private Limited

G. C. YADAV
Registrar of Companies
N. E. Region

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Prabhat Central Exchange Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 1-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Prabhat Central Exchange Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Jath Khandsari Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 2-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Jath Khandsari Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. OK Consultancy Service Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 3-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. OK Consultancy Service Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Magnachem Pharmaceuticals Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 4-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Magnachem Pharmaceuticals Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Shri Ranga Kshar Sagar Investments Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 5-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shri Ranga Kshar Sagar Investments Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Arahant Fabs Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 6-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Arahant Fabs Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Divgi Investment Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 7-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Divgi Investment Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Bhavani Auto Cranks Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 8-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Bhavani Auto Cranks Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Chinar Hotels Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 9-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Chinar Hotels Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Manjiri Investments Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 10-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Manjiri Investments Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Filteredge Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 11-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Filteredge Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shah Palace Makers Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 12-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shah Palace Makers Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kelkar Farms Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 13-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kelkar Farms Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Panzer Electronics Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 14-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Panzer Electronics Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Indian P V C Pipes Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 18-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Indian P V C Pipes Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Laxmi Poultries Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 15-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Laxmi Poultries Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Nakoda Sales Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 19-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Nakoda Sales Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Indian Water Treatment Company Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 16-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Indian Water Treatment Company Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ajwani-Shahani Promoters & Builders Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 20-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ajwani-Shahani Promoters & Builders Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Surender Wire Products Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 17-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Surender Wire Products Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Mehendale Irrigations Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 21-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Mehendale Irrigations Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Trambakshwar Investment Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 22-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Trambakshwar Investment Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Maya Investment Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 23-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Maya Investment Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Anapt Computer Services Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 24-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Anapt Computer Services Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Chinar Mouldplast Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 25-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Chinar Mouldplast Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shree Metal Engineering Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 26-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shree Metal Engineering Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ratnagiri Diary Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 27-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ratnagiri Diary Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kulkarni Borwankar Construction Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 28-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kulkarni Borwankar Construction Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Legend Chem Industries Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 29-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Legend Chem Industries Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Pasand Food & Feeds Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 30-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Pasand Food & Feeds Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Fluid Technologies & Systems Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 31-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Fluid Technologies & Systems Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Setra Times Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 32-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Setra Times Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Utpal Leasing & Finance Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 33-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Utpal Leasing & Finance Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Asaku Pumps Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 34-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Asaku Pumps Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shukratara Investment Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 35-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shukratara Investment Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Pitkar Surgicals & Marketing Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 36-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Pitkar Surgicals & Marketing Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Perfect Infocomp Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 37-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Perfect Infocomp Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shri Sharada Supercon Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 38-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shri Sharada Supercon Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shri Shivraya Cloth & Steel Traders Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 39-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shri Shivraya Cloth & Steel Traders Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Simplex Pharma-Chem Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 40-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Simplex Pharma-Chem Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Friendly Agro Industries Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 41-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Friendly Agro Industries Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Pareekrama Engineering Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 42-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Pareekrama Engineering Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vighnagar Financial Consultancy & Services
Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 43-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vighnagar Financial Consultancy & Services Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Asaul Electricals Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 44-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Asaul Electricals Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Naiks Camera Craft Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 45-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Naiks Camera Craft Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Nallaseth Construction Company Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 46-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Nallaseth Construction Company Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Western Poultry Farm Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 47-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Western Poultry Farm Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sarvadeo Steel Trading Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 48-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sarvadeo Steel Trading Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Meera Layer Farms Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 49-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Meera Layer Farms Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sharda Savings & Investment (India) Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 50-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sharda Savings & Investment (India) Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Injun Investments Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 51-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Injun Investments Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sanghvi Automobiles & Finance Enterprises Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 52-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sanghvi Automobiles & Finance Enterprises Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Anmol Finvest Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 53-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Anmol Finvest Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Baksun Healthcare Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 54-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Baksun Healthcare Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Goodhome Properties Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 58-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Goodhome Properties Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Rad Automotives Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 55-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rad Automotives Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Madhava Shelters Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 59-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Madhava Shelters Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Mansingh Properties Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 56-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Mansingh Properties Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Jagannath Shelters Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 60-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Jagannath Shelters Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Asha Shelters Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 57-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Asha Shelters Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Olympic Estates Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 61-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Olympic Estates Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Exquisite Estates Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 62-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Exquisite Estates Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Penguin Estates Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 63-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Penguin Estates Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Expert Estates Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 64-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Expert Estates Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Belfino-Investment and Corporate Services Private
Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 65-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Belfino-Investment and Corporate Services Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. AJ Securities & Finance Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 66-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. AJ Securities & Finance Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Poona Seals Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 67-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Poona Seals Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Venkatesh Hotels Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 68-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Venkatesh Hotels Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sarda Vidhyut Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 69-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sarda Vidhyut Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Achyut Commercials Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 70-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Achyut Commercials Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ideal Shelters Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 71-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ideal Shelters Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Elite Shelters Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 72-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Elite Shelters Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sarvadeo Shipyard Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 73-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sarvadeo Shipyard Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. DSK Chemicals Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 74-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. DSK Chemicals Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Nogorg Chemicals Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 75-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Nogorg Chemicals Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ramling Pulp and Paper Mills Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 76-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ramling Pulp and Paper Mills Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sarda Ventures Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 77-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sarda Ventures Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Protocontrol Microtech (India) Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 78-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Protocontrol Microtech (India) Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Steeltech Engineers Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 79-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Steeltech Engineers Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Poona Profins Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 80-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Poona Profins Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kalpavruksha Arthsahayya Company Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 81-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kalpavruksha Arthsahayya Company Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Grace Multimedia Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 82-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Grace Multimedia Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sarda Mudra Viniyog Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 83-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sarda Mudra Viniyog Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sarda Foundation Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 84-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sarda Foundation Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Durafab Construction Equipments Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 85-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Durafab Construction Equipments Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Baneshwar Agro Products Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 86-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Baneshwar Agro Products Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Gerbera Realtors Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 87-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Gerbera Realtors Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Urlikanchan Finance and Investment Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 88-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Urlikanchan Finance and Investment Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Master Link Computers Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 89-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Master Link Computers Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Keshar Advertising Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 90-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Keshar Advertising Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Jayendra Finance Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 91-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Jayendra Finance Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Bharati Hygiene Product Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 92-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Bharati Hygiene Product Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kapee Exim Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 93-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kapee Exim Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Life Link & Health Care Services Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 94-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Life Link & Health Care Services Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Valmet Welding (India) Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 95-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Valmet Welding (India) Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vision Realtors Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 96-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vision Realtors Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Intouch India Network Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 97-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Intouch India Network Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Pune Fleurs Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 98-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Pune Fleurs Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Bhimashankar Agriculture Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 99-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Bhimashankar Agriculture Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. J & C Health Care Products Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 100-2—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. J & C Health Care Products Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shivam Telecommunications Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 101-2—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shivam Telecommunications Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Yash Software Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 102-2—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Yash Software Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ashta Lokmanya Bazar Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 103-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ashta Lokmanya Bazar Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ashish Bio-Medical Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 104-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ashish Bio-Medical Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Saj Iron and Alloys Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 105-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Saj Iron and Alloys Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Pune Advanced Auditory Research Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 106-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Pune Advanced Auditory Research Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Circa Solutions Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 107-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Circa Solutions Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Tachyon Engineers Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 108-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Tachyon Engineers Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Hiem Textiles Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 109-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Hiem Textiles Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shri Saikrupa Biofertilizers Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 110-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shri Saikrupa Biofertilizers Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Gamacon (India) Software Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 114-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Gamacon (India) Software Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Technosoft Advance Systems Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 111-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Technosoft Advance Systems Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Surbhi Hotel Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 115-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Surbhi Hotel Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Purva Hospitals Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 112-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Purva Hospitals Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Jeju Polymers Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 116-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Jeju Polymers Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Punarvasu Agro Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 113-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Punarvasu Agro Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Agro-Ayurvedica Consultants Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 117-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Agro-Ayurvedica Consultants Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sangam Printers and Publishers Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 118-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sangam Printers and Publishers Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Accurate Technical Services Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 119-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Accurate Technical Services Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vishwa Software Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 120-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vishwa Software Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Unity Infra Constructions Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 121-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Unity Infra Constructions Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Yukti Softech Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 122-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Yukti Softech Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Try Catch Solutions Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 123-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Try Catch Solutions Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shriyash Systems Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 124-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shriyash Systems Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Communication Solutions and Systems Services
Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 125-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Communication Solutions and Systems Services Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Brainpower Software Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 126-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Brainpower Software Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Dynamic E-Com Solutions Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 127-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Dynamic E-Com Solutions Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Siscon Maxtech Icicles Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 128-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Siscon Maxtech Icicles Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shreekrupa Marketers Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 129-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shreekrupa Marketers Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Jindal Mittal Properties Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 130-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Jindal Mittal Properties Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. SK Nutrient Foods Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 131-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. SK Nutrient Foods Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Thermo Generics Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 132-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Thermo Generics Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Parshuram and Reeta Jadhav Multipurpose Hall
Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 133-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Parshuram and Reeta Jadhav Multipurpose Hall Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ashok e-Infotech Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 134-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ashok e-Infotech Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. MDL Health Care Systems Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 138-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. MDL Health Care Systems Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Keymax Maritime Company Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 135-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Keymax Maritime Company Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Padmanand Developers Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 139-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Padmanand Developers Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Savita Paper Trading Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 136-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Savita Paper Trading Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Aero-Soft Info Systems Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 140-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Aero-Soft Info Systems Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vimalsarovar Resorts Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 137-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vimalsarovar Resorts Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Siddhi Recovery Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 141-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Siddhi Recovery Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Balaji Super Shoppe Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 142-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Balaji Super Shoppe Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Lotus Computers (Kolhapur) Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 143-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Lotus Computers (Kolhapur) Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ria Herbals Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 144-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ria Herbals Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Glasnost Solutions Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 145-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Glasnost Solutions Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Aar Dee Express Services Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 146-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Aar Dee Express Services Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Gurudeo Developers Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 147-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Gurudeo Developers Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Phalke-Jadhav Ethanol and Agro Processing Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 148-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Phalke-Jadhav Ethanol and Agro Processing Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Chormas Beer Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 149-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Chormas Beer Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Antop Petro Chemicals Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 150-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Antop Petro Chemicals Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Jay Experts Services Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 151-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Jay Experts Services Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Tirth Infrastructure Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 152-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Tirth Infrastructure Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Jotirling Systems and Solutions Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 153-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Jotirling Systems and Solutions Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. S-Five Systems Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 154-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. S-Five Systems Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shri Balaji Mangal Karyalay Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 155-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shri Balaji Mangal Karyalay Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Partecs Participatory Technologies Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 156-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Partecs Participatory Technologies Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Plugin Electronics (India) Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 157-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Plugin Electronics (India) Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Pan-Cet Infratech Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 158-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Pan-Cet Infratech Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Intelliprop Technologies (India) Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 162-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Intelliprop Technologies (India) Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Om Micro Systems and Controls Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 159-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Om Micro Systems and Controls Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Genx BPO Services Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 163-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Genx BPO Services Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Zoting's S N Foods Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 160-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Zoting's S N Foods Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Aarohee Softwares Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 164-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Aarohee Softwares Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Jani's Mall Cum Cineplex Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 161-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Jani's Mall Cum Cineplex Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ameena Properties Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 165-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ameena Properties Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shri Swamy Samarth Hospital and Research Centre
Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 166-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shri Swamy Samarth Hospital and Research Centre Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. S. A. Magdum Promoters, Engineers and
Contractors Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 167-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. S. A. Magdum Promoters, Engineers and Contractors Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kalspan Technologies Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 168-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kalspan Technologies Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Arrow Metalliks Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 169-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Arrow Metalliks Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Websoft Media Net Solutions Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 170-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Websoft Media Net Solutions Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Plyda Services Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 171-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Plyda Services Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Smart Office Solutions Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 172-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Smart Office Solutions Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Darandale Hotels Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 173-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Darandale Hotels Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Outbound Training Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 174-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Outbound Training Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Lodha Sugar Manufacturing Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 175-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Lodha Sugar Manufacturing Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Mayur Printers (Pune) Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 176-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Mayur Printers (Pune) Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Swasth Insurance Services Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 177-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Swasth Insurance Services Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. North Sea Ventilation India Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 178-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. North Sea Ventilation India Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. MoneyMax Portfolio Management Services Private
Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 179-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. MoneyMax Portfolio Management Services Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sapkal Builders Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 180-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sapkal Builders Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. A-One Security and Investigations Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 181-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. A-One Security and Investigations Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Baliraja Shetkari Bazar Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 182-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Baliraja Shetkari Bazar Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kaigaonkar Jewellers Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 183-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Kaigaonkar Jewellers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said companies will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sidhivinayak Solvant Extraction Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 184-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sidhivinayak Solvant Extraction Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Filtrum Konstrukt Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 185-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Filtrum Konstrukt Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shri Laxmi Fruit & Vegetable Processing Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 186-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shri Laxmi Fruit & Vegetable Processing Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Clinisearch Biotechnologies Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 187-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Clinisearch Biotechnologies Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Bellevue Cam Software Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 188-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Bellevue Cam Software Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Atrium Hospitality and Property Management
Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 189-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Atrium Hospitality and Property Management Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Corrvette Solutions Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 190-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Corrvette Solutions Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shree Krishna Event Management Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 194-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shree Krishna Event Management Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Infolex Research and Analysis Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 191-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Infolex Research and Analysis Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Inara Technologies Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 195-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Inara Technologies Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sahara Dairy Products Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 192-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sahara Dairy Products Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shrushti Pollutech Consultants Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 196-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shrushti Pollutech Consultants Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. August Engineers Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 193-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. August Engineers Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. KIP Information Technology Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 197-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. KIP Information Technology Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. A-1 Flora Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 198-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. A-1 Flora Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ashtvinayak Chits Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 199-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ashtvinayak Chits Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Saptaruchi Hotels Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 200-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Saptaruchi Hotels Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Dongwoo Electronics Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 201-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Dongwoo Electronics Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Purneshwar Agro Exports Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 202-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Purneshwar Agro Exports Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vertix Technologies Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 203-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vertix Technologies Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. S. Macro Engineers Project Management Private
Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 204-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. S. Macro Engineers Project Management Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Baneshwar Cold Storage Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 205-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Baneshwar Cold Storage Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Mystic India Townships Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 206-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Mystic India Townships Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. ASPR Packaging Solutions Private Limited

Pune-411004, the 18th October 2011

No. 207-I—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. ASPR Packaging Solutions Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Cuttack-753014, the 15th November 2011

No. ROC/Sec. 560(3)/2011/2805—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the following Companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said companies will be dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	15-008161	M/s. Alliance Blackpearl Private Limited
2.	15-008175	M/s. Assurance Engineering and Construction Private Limited
3.	15-008179	M/s. Maison Hotels and Resorts Private Limited
4.	15-008180	M/s. Kamdhenu Minerals Private Limited
5.	15-008181	M/s. Malati Consturctions Private Limited
6.	15-008183	M/s. Cynosure Infrasturctures Private Limited

1	2	3
7.	15-008188	M/s. S. S. Automobile Services Private Limited
8.	15-008189	M/s. Astik Neuro Scan Research and Diagnostic Private Limited
9.	15-008194	M/s. Nandighosh Sales and Marketing Private Limited
10.	15-008197	M/s. Shantilata Mines and Minerals Private Limited
11.	15-008203	M/s. Ubique Genesis Limited
12.	15-008207	M/s. Ever Green Bioplanttec Private Limited
13.	15-008213	M/s. Par Share Private Limited
14.	15-008219	M/s. E. Technoverb Private Limited
15.	15-008226	M/s. Kalinga Routes Private Limited
16.	15-008227	M/s. Maha Parvat Steels Private Limited
17.	15-008228	M/s. Durga Devi Food Products Private Limited
18.	15-008239	M/s. Axis Outsourcing Private Limited
19.	15-008241	M/s. B. P. L. Real Estate Private Limited
20.	15-008242	M/s. Mahaprabhu Properties Private Limited
21.	15-008245-	M/s. Nilanchal Tele Networks Private Limited
22.	15-008249	M/s. Jaleswar Cold Storage Private Limited
23.	15-008262	M/s. Sepha Multi Marketing Private Limited
24.	15-008264	M/s. Ganjam Zircon Private Limited
25.	15-008269	M/s. Gangeya Agro India Limited
26.	15-008273	M/s. Swagat and Company Minerals Private Limited
27.	15-008274	M/s. Dhubri Engineering Private Limited
28.	15-008278	M/s. Kalinga Assets Reconstruction Private Limited
29.	15-008284	M/s. S. S. Placement Services Private Limited
30.	15-008285	M/s. Real Time Holiday Home and Market Complex Private Limited
31.	15-008286	M/s. Parichaya Holiday Home Private Limited
32.	15-008288	M/s. United Team Solutions Private Limited
33.	15-008290	M/s. Simanchal Security Services Private Limited

1	2	3
34.	15-008298	M/s. Amroosha Nature's Management Private Limited
35.	15-009395	M/s. Denizens Enterprises Private Limited

C. K. DAS
Asstt. Registrar of Companies
Orissa

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Cuttack-753014, the 17th November 2011

No. ROC/Sec. 560(3)/2011/2840—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the following Companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said companies will be dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	15-008300	M/s. Achiever Associate Marketing Private Limited
2.	15-008309	M/s. New Ambition Marketing Foundation Private Limited
3.	15-008313	M/s. Ekadanta Power Private Limited
4.	15-008314	M/s. Fuel Management Services Private Limited
5.	15-008322	M/s. Jharsuguda Properties Private Limited
6.	15-008330	M/s. Kamyab Entertainment Private Limited
7.	15-008331	M/s. Sampark Exim Private Limited
8.	15-008332	M/s. Force 24 x 7 Security and Consultancy Services Private Limited
9.	15-008333	M/s. Preetiusha Infrastructure Private Limited
10.	15-008335	M/s. Amlan Promoters and Developers Private Limited
11.	15-008342	M/s. Siddha Binayak Oxygen Private Limited
12.	15-008348	M/s. Shakti Assembling and Selling Private Limited
13.	15-008349	M/s. Satyasai Tradelink Private Limited

1	2	3
14.	15-008357	M/s. Sri Venkateswara Fruit Extracts Private Limited
15.	15-008359	M/s. Jagat Holistic Healthcare Private Limited
16.	15-008367	M/s. Jayveer Security Services Private Limited
17.	15-008369	M/s. Ace Initiatives Private Limited
18.	15-008378	M/s. Shrrima Irons Private Limited
19.	15-008379	M/s. Prashant Dairy Farms Private Limited
20.	15-009242	M/s. Alchemy Minerals Private Limited
21.	15-003435	M/s. Pandey Shelter and Constructions Private Limited
22.	15-003448	M/s. Eagle's View Security Services Private Limited
23.	15-003717	M/s. Classic Aqua Limited
24.	15-003723	M/s. Rirtch Aquagro Private Limited
25.	15-003762	M/s. Mahanadi Plantations Limited
26.	15-003775	M/s. Sevati Devi Media Private Limited
27.	15-003865	M/s. Lotus Farms Private Limited
28.	15-003892	M/s. Samadhan Estate Private Limited
29.	15-003962	M/s. Aquatic Farms Limited
30.	15-003966	M/s. Sutar Agrochemicals Private Limited
31.	15-004090	M/s. Indian Rare Metals Limited
32.	15-004167	M/s. Swagatika Electronics Private Limited
33.	15-004177	M/s. Micro Tech Private Limited
34.	15-004184	M/s. Sunshine Gardens Private Limited
35.	15-004194	M/s. Panda Brothers Private Limited

C. K. DAS
Asstt. Registrar of Companies
Orissa

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Cuttack-753014, the 18th November 2011

No. ROC/Sec. 560(3)/2011/2876—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the following Companies unless

cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said companies will be dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	15-004264	M/s. Ghanteswari Flour Mills Private Limited
2.	15-004345	M/s. Shreepati Consultancy & Financial Services Private Limited
3.	15-004376	M/s. Interlink Private Limited
4.	15-004398	M/s. S. S. Chemicals Private Limited
5.	15-004408	M/s. Kalinga Computer Private Limited
6.	15-004434	M/s. Debendra Farm Private Limited
7.	15-004462	M/s. Cygnet Metallurgy Private Limited
8.	15-004596	M/s. Dey Builders and Developers Private Limited
9.	15-004639	M/s. Green Estates (India) Limited
10.	15-004647	M/s. Gajraaj Estate Developers Private Limited
11.	15-004749	M/s. Binori Builders Private Limited
12.	15-004753	M/s. Sambit Merchantiles Private Limited
13.	15-004762	M/s. Chidananda Agro India Limited
14.	15-004765	M/s. Team Education Centre Private Limited
15.	15-004792	M/s. Bikash India Agro Estate Limited
16.	15-004807	M/s. Yendee Rahul Industrial Gas Private Limited
17.	15-004966	M/s. Variety Homes Builders and Promoters Private Limited
18.	15-005113	M/s. Jolly Breweries Private Limited
19.	15-005168	M/s. Microsam Computers Private Limited
20.	15-005241	M/s. Square-S Infotech Private Limited
21.	15-005243	M/s. Meenakshi Builders Private Limited
22.	15-005255	M/s. Akash Ashiyana Private Limited
23.	15-005287	M/s. Suncity E Mart Private Limited
24.	15-005288	M/s. Priyadarshi Realtors Private Limited
25.	15-005299	M/s. Sanman Sales and Engineering Private Limited
26.	15-005315	M/s. Bliss Metals Private Limited

1	2	3
27.	15-005340	M/s. Prahallad Builders and Developers Private Limited
28.	15-005343	M/s. Bhadrak Oxygen Private Limited

C. K. DAS
Asstt. Registrar of Companies
Orissa

In the matter of Companies Act, 1956 and of
following Companies :—

Chennai, the 3rd November 2011

No. 48004 to 48977/Suo-motu/560/(3)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the names of the following companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved:—

Sl. No.	Company No.	Company Name
1	2	3
1.	48004	M/s. Star Career Network Private Limited
2.	48006	M/s. Seventh Sense Marketing Private Limited
3.	48008	M/s. Hes Safety and Environment Services Private Limited
4.	48009	M/s. Oasis Auto Impex Private Limited
5.	48010	M/s. Jern Environment Technology Systems Private Limited
6.	48015	M/s. R. R. Network Services Private Limited
7.	48018	M/s. Regaalia Promars Systems Private Limited
8.	48030	M/s. Dynasys Solution Valley Private Limited
9.	48032	M/s. Tentacle (Software) Technologies Private Limited
10.	48043	M/s. Rasasri Exports & Imports Private Limited
11.	48045	M/s. Sristti Corporate Sales Private Limited
12.	48048	M/s. Baylink Computers Private Limited
13.	48063	M/s. Hindustan Ocean Products Export Private Limited

1	2	3	1	2	3
14.	48087	M/s. Tagach Technologies Private Limited	42.	48381	M/s. Evergreat Builders Private Limited
15.	48091	M/s. Sidha Aqua Marketing Private Limited	43.	48393	M/s. City Reach Marketing Private Limited
16.	48099	M/s. Malolan Marketing Private Limited	44.	48396	M/s. N. N. Soft Tech Private Limited
17.	48102	M/s. Raadan Infotech Private Limited	45.	48435	M/s. Nissan Aqua Farm Private Limited
18.	48111	M/s. Nanda Solutions Private Limited	46.	48440	M/s. Vasan Properties & Developers Private Limited
19.	48114	M/s. Nests Felexipack Private Limited	47.	48444	M/s. Ajay Forex Private Limited
20.	48117	M/s. Nova Medical Systems India Private Limited	48.	48454	M/s. Rajeswari Net Private Limited
21.	48151	M/s. Brainchip Software Solutions Private Limited	49.	48463	M/s. Openworld Systems Private Limited
22.	48153	M/s. Western Express Clothing Private Limited	50.	48480	M/s. Esjeey Courier & Logistics Private Limited
23.	48162	M/s. Unique Fire Safety Equipments Private Limited	51.	48494	M/s. Sindia Trading & Marketing Private Limited
24.	48167	M/s. Shots N. Stills (India) Private Limited	52.	48522	M/s. Convergence Technology Solutions Private Limited
25.	48177	M/s. Thiruverkadu Karumariamman Chits Private Limited	53.	48547	M/s. J. V. Movie Makers Private Limited
26.	48214	M/s. Nascent Technology Solutions Private Limited	54.	48561	M/s. Jollyhood Exim Private Limited
27.	48224	M/s. Bhabhi's Foods Private Limited	55.	48570	M/s. Jollyhood Entertainments Private Limited
28.	48229	M/s. Mother Aurobindo Infotech Private Limited	56.	48572	M/s. Quad Enterprise Software Private Limited
29.	48240	M/s. Kartik Civil Contractors Private Limited	57.	48580	M/s. Prokura Management Services Private Limited
30.	48275	M/s. Cattle Leather House Private Limited	58.	48581	M/s. Rishvin Marketing Private Limited
31.	48278	M/s. West Coastal Amusement Park Private Limited	59.	48582	M/s. Foodzone Marketing Private Limited
32.	48279	M/s. Pertinent Cyber Solutions Private Limited	60.	48595	M/s. Mystical Express Private Limited
33.	48296	M/s. Challenge. Net Private Limited	61.	48596	M/s. Chennai Water Technologies Private Limited
34.	48305	M/s. Clear Rock Private Limited	62.	48597	M/s. Makewin Marketers Private Limited
35.	48312	M/s. Plantman Software Technologies Private Limited	63.	48601	M/s. Shreeyas Informatis Private Limited
36.	48318	M/s. Dynamic Air Connections Private Limited	64.	48610	M/s. B. V. V. Engineers & Promoters Private Limited
37.	48328	M/s. Kerala Fashion Jewellery Purasai Private Limited	65.	48620	M/s. Maharaj Agro Tech Private Limited
38.	48330	M/s. Bhatia Resorts Private Limited	66.	48622	M/s. Twilight Equipments Private Limited
39.	48359	M/s. Skat Waters Private Limited	67.	48637	M/s. Coherent Solutions Private Limited
40.	48364	M/s. Al-Baqavi Comptech Private Limited	68.	48638	M/s. Yakinatas Travels Private Limited
41.	48377	M/s. Srija Hotels Private Limited	69.	48702	M/s. Ramkastury Exports & Imports Private Limited
			70.	48709	M/s. Digi Design Technologies Private Limited

1	2	3	1	2	3
71.	48712	M/s. Arif Shoes Private Limited	88.	48868	M/s. Wintwin Solutions (India) Private Limited
72.	48722	M/s. East Coast Entertainments Private Limited	89.	48872	M/s. Toledo Solutions Private Limited
73.	48728	M/s. Airnet Broadband Communications Private Limited	90.	48895	M/s. Sai E-Seva Dot Com Private Limited
74.	48730	M/s. Aditya Consumer Marketing Services Private Limited	91.	48908	M/s. Corporate Tours Private Limited
75.	48738	M/s. Mermaid Logistics Private Limited	92.	48910	M/s. Sree Muthiah Consultants Private Limited
76.	48745	M/s. Marshal Vibration Engineers and Consultants Private Limited	93.	48917	M/s. Byte-Cities Networkers India Private Limited
77.	48762	M/s. Reallink Distribution Services Private Limited	94.	48918	M/s. Digiage Multimedia Solutions Private Limited
78.	48763	M/s. Neeraja Leather Exports Private Limited	95.	48921	M/s. Fuzion Beverages Private Limited
79.	48769	M/s. Trayton Furniture India Private Limited	96.	48941	M/s. Hi-Reach Infotech Chennai Private Limited
80.	48778	M/s. Simiz Apparels Private Limited	97.	48953	M/s. Prime Clinics Private Limited
81.	48781	M/s. Dorman Long India Draughting Private Limited	98.	48954	M/s. Balakrishnas Propertys Private Limited
82.	48786	M/s. I. T. E. Consultants Private Limited	99.	48956	M/s. Alchemy Networkk Solutions Private Limited
83.	48823	M/s. K. T. C. Marketing (India) Private Limited	100.	48965	M/s. Genrex Pharma Private Limited
84.	48827	M/s. John of Arc Detectives and Securities Private Limited	101.	48970	M/s. Schoolong India Dot Com Private Limited
85.	48829	M/s. Arudra Steel Rolling Mills Private Limited	102.	48971	M/s. Ethos Technologies Private Limited
86.	48850	M/s. Earnway Network Marketing Private Limited	103.	48977	M/s. T. Arumaidurai Logistics Private Limited
87.	48854	M/s. Tandum Consultancy Services Private Limited			

K. LATHA PARIMALAVADANA
Dy. Registrar of Companies
Tamilnadu